



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11052024-254163
CG-DL-W-11052024-254163

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 11—मई 17, 2024 (वैशाख 21, 1946)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 11—MAY 17, 2024 (VAISAKHA 21, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार
के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
[त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस)]

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/80—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7157012	U01132AS1982SGC001977	असम सिंटेक्स लिमिटेड
2	AA7328616	U51109AS2010PTC009922	असोर्टेड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
3	AA7649534	U45200AS2016PTC012303	डीजेबी इन्फ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7448084	U74999AS2021PTC022004	एसवीएस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/81—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7443355	U62013KA2024PTC183129	पिनस्टार 24 प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7223242	U62013KA2023PTC174141	डैबलडॉप प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7137092	U45309KA2022FTC168304	नोवेल बीटीपी प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7461748	U74999KA2022PTC166923	हर्षना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7573629	U92490KA2022PTC161622	ग्रेटब्रोस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7426506	U01110KA2022PTC162712	प्रोटीन एग्री एंड अलाइड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7424026	U72900KA2022PTC164568	प्लुको टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7174319	U72900KA2016OPC098411	सेलेस्टिका टेक इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7407947	U93000KA2019OPC121320	सीकैप शिपिंग एंड ट्रेडिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7340556	U15490KA2019PTC122267	दफ़ेदार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7538261	U72100KA2021FTC156054	रेनटेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7530364	U72200KA2021PTC152273	ई-सेल्फसर्विस कार्ट प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7183312	U23100KA2022PTC163730	मिग बायो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7519054	U17299KA2021PTC153807	तिरंग रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7408174	U72900KA2019PTC121792	मास्टरडेन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7437360	U72200KA2021PTC153880	सीररयम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
17	AA7425065	U40106KA2019PTC121824	सूर्यार्थ एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7505612	U72900KA2021PTC155215	वेलासिटी ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7291141	U65990KA2022PLN157133	यासीन खान निधि लिमिटेड
20	AA7526650	U72900KA2021PTC151857	मल्टीट्यूड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7199253	U34300KA2021PTC154613	रॉकहैमर हेवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7204730	U74999KA2021PTC154689	ओपनहब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7470797	U80900KA2021PTC145349	इडीयूलीड लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7372047	U40105KA2021PTC151133	प्राइमको पावर प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7634280	U70100KA2016PTC095765	क्लिचेड डाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7507468	U72900KA2021PTC142846	निवायम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
27	AA7318536	U74999KA2020PTC141578	फ्रेटरनिटी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
28	AA7167768	U74910KA2020PTC141934	डॉल्फिन एचआर सॉल्यूशंस एंड स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
29	AA7430057	U74110KA2020PTC140887	एक्स मटेरियल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
30	AA7634261	U15209KA2020PTC137172	मैतो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AA7427160	U74999KA2020PTC137683	कलतापस्या प्राइवेट लिमिटेड
32	AA7571286	U72900KA2020PTC138403	अविरफ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AA7583752	U72200KA1996PTC020444	एफबीडी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
34	AA7530823	U72900KA2019PTC128695	न्यूनटियम मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
35	AA7232295	U28999KA2019PTC128728	उल्लासा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
36	AA7623341	U24304KA2020PTC134675	सांताबे मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
37	AA7508555	U93000KA2020PTC131755	सोसिमी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
38	AA7580083	U72900KA2019PTC128824	प्रगतितेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
39	AA7185392	U65992KA2018PTC118070	कविराम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
40	AA7362122	U01100KA2018PTC115395	बेवी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
41	AA7560404	U74999KA2018PTC117227	साइनबीज़ प्राइवेट लिमिटेड
42	AA7379397	U74999KA2018PTC111903	वर्टियम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
43	AA7555385	U72900KA2018PTC112880	अल्ट्रापाइ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
44	AA7207845	U74999KA2017PTC105096	करोमस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
45	AA7643809	U72900KA2017OPC108171	इक्या मेडिकल सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
46	AA7509266	U74999KA2017PTC101214	बम्प्टी ड्रम्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
47	AA6971481	U45400KA2016PTC096088	हनी प्रॉपर्टीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AA7625364	U93090KA2017PTC102642	डिक्टम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
49	AA7361101	U74999KA2016PTC092598	विनेट्रा ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
50	AA7630404	U72200KA2016PTC085494	ऐप्टेसो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
51	AA7160495	U65992KA2016PTC086872	रिसोर्स चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
52	AA7312210	U18109KA2015PTC082658	टैरियो फैशन प्राइवेट लिमिटेड
53	AA7657840	U80301KA2016PTC085478	एडुएक्सिस एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
54	AA7527754	U60200KA2014PTC076081	मैराथन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
55	AA7547293	U70101KA2009PTC050877	केआरएस इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
56	AA7489468	U72200KA2011PTC057910	पीएनसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
57	AA7262294	U74900KA2010PTC054430	डीकेआर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
58	AA7552572	U45300KA2008PTC048643	डेल्टा बिल्डप्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
59	AA7137733	U35301KA2006PTC040450	शोभा एविएशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
60	AA7372669	U55101KA1992PTC012949	एक्वीसीटे किसिने प्राइवेट लिमिटेड
61	AA7138402	U45201KA2008PTC047073	सोभा हाईटेक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
62	AA7174156	U45202KA2007PTC042199	सोभा मेपलट्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
63	AA7487262	U55101KA2006PTC041189	ईटीए स्टार फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
64	AA7578584	U27141KA2007PTC041762	शोभा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
65	AA7365927	U47912KA2023PTC176684	क्रिया प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/82—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7343908	U74999BR2017PTC033338	सैपी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7238125	U51909BR2017PTC035068	अरविंद हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7541878	U72900BR2018PTC039612	साम लॉगिन रेडियस प्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7181637	U93000BR2020PTC047944	इंद्राणी सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7564376	U45400BR2021PTC050026	एनएक्सडेवलपर प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7186911	U67190BR2022PTC060816	केनरा फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/83—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7572069	U72900CH2019PTC042824	मलए आईए प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7473164	U17200PB2013PLC037062	ओसवाल वूल एंड एलाइड लिमिटेड
3	AA7383796	U70200PB2017OPC047007	ग्लिट्ज़ी बिल्ड्सवेल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7393684	U55101PB2020PTC051926	सुकूनट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7230450	U72900PB2021PTC053606	मकरिस प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7230989	U15400PB2022PTC055507	आईएसवीपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7348972	U63030PB2022PTC055250	फर्स्टबॉक्स एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/84—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7218002	U27320CT2021PTC011365	मैब्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी

सहायक रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/85—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7180205	U72900TN2019PTC126788	रिसान टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7200750	U93090TN2019PTC127273	शिक्षाणा सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7420782	U51909TN1993PTC050180	गोल्डन लेक मर्चेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7552771	U72200TN2003PTC051517	विनवेज़ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6760409	U74999TN1997PTC038723	हैम्पटन प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7388186	U72900TN2022FTC155710	महादाता सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7211756	U72900TN2010PTC077120	क्रियोस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7411384	U74999TN2011PTC083159	केएचएल कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7288993	U60200TN2014PTC098106	पीएस शिपिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7434806	U74900TN2013PTC093599	कोरेलिस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7515066	U74999TN2015PTC102674	ईचा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
12	AA7285645	U74999TN2012PTC084445	वेंकटेश्वर इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7486907	U74999TN2016PTC113393	हेगुरु राइट ब्रेन डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7218303	U01110TN2015PTC100774	स्ट्रैटफील्ड फार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7206643	U51100TN2008PTC067165	प्लंबिंग और बोरवेल्स सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7085419	U15137TN2017PTC118808	प्रयान डेयरी फार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AA6963708	U72200TN2018PTC120941	इटोरासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7377435	U72900TN2017PTC119128	कॉजपाइंट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7037990	U74999TN2018FTC122138	एएएसएल ऑटोलेब्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7268549	U74140TN2020PTC135053	प्रकृति एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7487681	U72900TN2020PTC135853	एच2बी नेक्सजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7239671	U65999TN2020PTC137292	पैफक्स फाइनेंसियल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7435440	U65999TN2020PTC136875	एनपीए फॉर्च्यून इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7194326	U45201TN2020OPC136387	फियोरिक कॉन्ट्रैक्टिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7239858	U24299TN2021PTC140942	एलाबाइट मिनरल्स एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7527004	U51505TN2020PTC139819	फ्लोक्स आईटी सर्विसेज एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
27	AA7483879	U85110TN2021PTC142995	रानी मल्ली विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड
28	AA7488744	U40106TN2021PTC141500	इंडेनर्जी हाईपावर प्राइवेट लिमिटेड
29	AA7629296	U72900TN2021OPC146877	आदिमित्रा इनोवेटिव सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
30	AA7280501	U23209TN2021PTC146638	एएयूएस ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड
31	AA7050662	U72900TN2021PTC146553	पिकानोट प्राइवेट लिमिटेड
32	AA7250190	U24290TN2021PTC148804	भारती मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
33	AA7590614	U74999TN2022PTC150567	तवीसा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
34	AA7661872	U72900TN2022PTC152348	एनविज्ञान सिम प्राइवेट लिमिटेड
35	AA7372864	U65100TN2022PTC154781	मरीना माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
36	AA7326544	U40106TN2022PTC156993	बेलमॉप्स एनर्जी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
37	AA7626768	U25200TN2022PTC157776	मैलम मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
38	AA7151606	U64990TN2023PTC161805	जयविन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AA7581181	U56210TN2023PTC161709	फूडस्टेसी प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/86—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7175052	U24304TZ2017PTC028348	क्लेरियन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7543602	U45500TZ2016PTC027815	पेपिक होम्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7477631	U72900TZ2017PTC028615	कॉम्पिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7224452	U72900TZ2020PTC034106	एआरटी ईगल एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7108181	U35999TZ2020PTC034797	रक्षा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7193840	U45309TZ2021PTC035569	सेयोन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7215319	U51900TZ2021PTC037829	एसवीएस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7077074	U74999TZ2021PTC037463	वाइब इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7547009	U62099TZ2023PTC029816	स्मार्टफ्यूजन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7238554	U62010TZ2023PTC030072	स्काईबीन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी

सहायक रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/87—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7204055	U15549DL2019PTC345915	अल-सलामन फूड प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7506341	U50400DL2019PTC345914	आरएके ऑटो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7476983	U80900DL2019PTC345956	वेस्टरबैका एजुकेशन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
4	AA7340458	U74899DL1987PTC027894	सुपर फाइन बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7171865	U74899DL1985PTC020484	पी.आर. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7348243	U74899DL1994PTC057753	विएट्रेड टूर्स एंड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7636152	U74899DL1993PLC054361	कुबेर फेरो अलॉयज लिमिटेड
8	AA7342002	U74899DL1994PTC061367	टू क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7377459	U67190DL1996PTC075105	रावलसन वेस्टकॉन प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7521713	U74899DL1990PTC042370	सीएनएम लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7525055	U74899DL1991PTC044889	क्लासिक इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7538031	U65929DL1996PTC076411	वैदाही लीज एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7507607	U15500DL1991PTC046265	स्काई प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7214857	U17115DL1996PTC079177	शिव-ओम कोरू-फैब प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7217129	U63040DL1995PTC074614	एकमे टूर्स एंड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7196665	U72200DL2000PTC104408	नेटलिक ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7665659	U74140DL2001PTC113521	जीएसके कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7204226	U72900DL2000PTC104933	अराउंडटाउन कॉम प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7602344	U24239DL2004PTC124588	शिव शक्ति सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7563611	U63013DL2003PTC118887	रिवेरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7544004	U18102DL2003PTC118773	उपशा टेक्स क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7215870	U24246DL2005PTC137794	शीना ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7155506	U74899DL2005PTC141357	सी पर्ल रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7659286	U74210DL2005PTC140578	लाइन एंड फॉर्म आर्किटेक्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7554052	U25209DL2006PTC156771	एच पी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7217030	U32201DL2006PTC156387	फ्लैश ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्राइवेट लिमिटेड
27	AA7492215	U51109DL2008PTC281484	सीटीसी एम्पोरियो प्राइवेट लिमिटेड
28	AA7461896	U72900DL2022PTC405268	पबंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
29	AA7285178	U72300DL2007PTC170090	एसजी ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	AA7126318	U65990DL2007PTC171465	सनराइज वेल्थ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AA7219815	U63090DL2008PTC173163	इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
32	AA7065006	U45200DL2008PTC180049	एसडी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
33	AA7449889	U17291DL2008PTC185135	अर्जुन टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड
34	AA7471173	U51909DL2009PTC186352	एसएमटीएच इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AA7572814	U17120DL2008PTC185063	ऊना कंसल्टिंग एंड डिजाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
36	AA7515534	U74899DL1994PTC063534	नुपुर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AA7653264	U40300DL2010PTC203528	टीपी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AA7603658	U70200DL2010PTC206339	एचएसएम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AA7240488	U74900DL2009PTC196977	एन.एम. जूटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AA7466336	U74999DL2011PTC222300	लॉडेस्टार लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
41	AA7323152	U64200DL2009PTC191875	एडाप्टिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
42	AA7203249	U63000DL2012PTC241089	लोटस एयर टिकट्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
43	AA7620286	U18109DL2012PTC244259	ऑडरिया क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड
44	AA7118204	U51900DL2012PTC234104	स्पार्क ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
45	AA7448182	U27200DL2011PTC226809	रिसर्जेंट मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
46	AA7611911	U72400DL2006PTC149596	मित्तल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
47	AA7326846	U51109DL2006PTC151589	अर्बन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AA7345320	U74140DL2014PTC274816	वॉक्स पॉपुली कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
49	AA7214302	U45400DL2014OPC272090	विगोर प्रॉपबिल्ड ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
50	AA7626755	U74999DL2006PTC153434	जी.टी.सी. इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AA7183008	U67190DL2015PTC280443	जीके 2 मनी चेंजर प्राइवेट लिमिटेड
52	AA7333270	U72300DL2015PTC280937	बफर लिंक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
53	AA7434640	U51909DL2015PTC278231	सामुई इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
54	AA7216462	U74900DL2016PTC291261	नष्टजन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
55	AA7128492	U74999DL2016PTC302538	आईटीनेक्टर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
56	AA7219816	U74300DL2015PTC277661	एथिया एडवरटाइजमेंट एंड पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड
57	AA7248641	U52190DL2016PTC298456	निकोलिना ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
58	AA7554054	U74999DL2018PTC334939	जगन्नाथ प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
59	AA7532619	U50400DL2017PTC315675	कार्डम वाहन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
60	AA7628231	U74999DL2017PTC317384	अमावेला हैंडमेड सोप्स प्राइवेट लिमिटेड
61	AA7654703	U74999DL2018PTC339277	कैरफेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
62	AA7518640	U92490DL2019PTC351128	डेनोवो स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
63	AA7639276	U74999DL2019PTC350330	ऑर्डर हाइपर मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
64	AA7557718	U40108DL2019PTC354117	स्वच्छ वेस्ट एनर्जी एंड इकोलॉजी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
65	AA7222417	U63090DL2019PTC353997	कैला टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
66	AA7369736	U74999DL2019PTC357764	न्यूडज इनसाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
67	AA7614776	U55101DL2019PTC355000	दार-रेह वैली एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
68	AA7014872	U65999DL2020PLN361563	सिद्धबली निधि लिमिटेड
69	AA7195709	U74999DL2020PTC361429	प्रेजेंटेशन स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
70	AA7312780	U72900DL2020PTC364029	गेमर्स एरिना प्राइवेट लिमिटेड
71	AA7463344	U40300DL2020PTC360032	अदानी रिन्यूएबल एनर्जी बत्तीस प्राइवेट लिमिटेड
72	AA7466849	U29100DL2019PTC357385	टमी न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
73	AA7503224	U74999DL2020PTC369478	एननेड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
74	AA7253200	U33119DL2020PTC368558	पीवीओ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
75	AA7487590	U14290DL2021PTC376048	चक्रपाणि माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
76	AA7432832	U52599DL2020FTC374866	इंडिसका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
77	AA7393564	U27320DL2020PTC373268	एएसआर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
78	AA7304223	U63030DL2021PTC377509	वर्ल्डक्लाउड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
79	AA7283015	U52100DL2021PTC383033	आरोग्य फार्मसी प्राइवेट लिमिटेड
80	AA7456424	U52100DL2021PTC384341	क्यूबन ईकॉम प्राइवेट लिमिटेड
81	AA7619294	U40106DL2021PTC387565	ईएलपी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
82	AA7559432	U28999DL2021PTC388869	श्री कला हस्ती इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
83	AA7591154	U72900DL2022PTC400493	ग्रेलक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
84	AA7527103	U74999DL2022PTC395197	जेटली और बख्शी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
85	AA7145260	U65999DL2022PTC400378	वेटन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
86	AA7322145	U15490DL2022PTC392202	नेक्स्ट बाइट ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
87	AA7550130	U50401DL2022PTC393644	इंडसक्रैप ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
88	AA7381507	U45309DL2022PTC401508	एन प्लस डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
89	AA7241008	U31500DL2021PTC389305	कौटेक एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
90	AA7212626	U72900DL2021PTC387058	वनज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
91	AA7310289	U20299DL2022PTC392421	लॉगहॉर्न पैनेल्स प्राइवेट लिमिटेड
92	AA7571346	U74999DL2022PTC401278	ब्लूयड रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
93	AA7517130	U25200DL2022FTC399317	स्काईलैंड मास्टरबैच स्काईलैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
94	AA7446339	U72900DL2022PTC394687	जान्हवीमिरा इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
95	AA7633878	U24290DL2022PTC403797	डेरिविक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
96	AA7249958	U19129DL2022PTC405500	सैमो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
97	AA7461808	U72900DL2022PTC405772	इज़्ज़ीपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
98	AA6907420	U50404DL2023PTC409820	वैनेसा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
99	AA7440202	U85500DL2023PTC410903	सुगागोइल प्राइवेट लिमिटेड
100	AA7607140	U86909DL2023PTC411186	ईजीट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
101	AA7368025	U72200DL2022PTC408256	आरजीएस इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
102	AA7491579	U64990DL2023PTC412420	सुपिन चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
103	AA7203377	U49231DL2023PTC413243	ग्लोट्रांस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
104	AA7183460	U82990DL2023FTC413571	लैडरप्रो ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
105	AA7507388	U93120DL2023PTC417408	वेटरन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
106	AA7533908	U70200DL2023PTC414320	यूनीहैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
107	AA7548912	U96905DL2023PTC421749	रैविसेंट स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिर्की
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/88—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7369025	U34300GA2005PTC004166	शिवसमर्थ मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7637033	U72900GA2018PTC013769	बडिंग ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7473527	U27109GA2021OPC014638	प्रीति एल्युमीनियम (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी

सहायक रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/89—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7614509	U63030GJ2022PTC132715	आर्कटिक कोल्डबॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7557645	U72900GJ2020PTC117478	चुटाकी टेक प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7470467	U74999GJ2020PTC115286	डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7433118	U17309DN2020PTC005611	एस्टरस क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7558600	U40107GJ2019PTC106198	श्री वेंकटेश गैस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7578830	U74999GJ2019PTC110102	सिमप्रोसे प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7362078	U01120GJ2018PTC104913	खेदुतपे प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7186157	U24233GJ2015PTC082949	अमंता अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
9	AA7252949	U24232GJ2006PTC049069	रेट्रोसिंथ फिनकेम प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7526816	U32106GJ2013PTC074321	ईट एंड ट्रीट एडिट प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7394107	U74200GJ2014PTC081490	ए जे पटेल सर्वे कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7514926	U67120GJ2010PTC060314	परम इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7130446	U67190GJ2007PTC083034	कसारे फिनकैप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7372213	U64200GJ2022PTC135533	डेक्सटेरस नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7246582	U25199GJ2000PTC038057	फेज़ान प्री-क्योर्ड प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7263718	U65910GJ1989PLC012104	मून सिक्योरिटीज लिमिटेड
17	AA7180425	U51109GJ2004PTC043903	सिद्धि केरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7440788	U24231GJ1995PLC025169	सुविधा कॉटन लिमिटेड
19	AA7564218	U92411GJ1976PTC002955	शशि थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/90—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7519718	U51101MP2003PTC015715	लिक रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7261409	U85110MP2012PTC029664	स्टैंडर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7217471	U40106MP2014PTC032851	बालकृष्ण सोलर पावर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7231483	U25113MP2018PTC045160	अंतरमना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7619820	U60200MP2019PTC049830	अनिल ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7412695	U05000MP2019PTC049362	शेरखान फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7349352	U52396MP2020OPC050716	डिरेल इनोवेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
8	AA7155321	U17299MP2019PTC049804	बद्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7519477	U01409MP2021PTC057367	मेडीफार्म एग्रेसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7161760	U74999MP2021PTC056304	मायहैशकोड प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7415220	U74999MP2021PTC056771	वाई-फोर्स सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7551741	U31907MP2021PTC058981	आदि कोर ईवी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7535382	U01100MP2022PTC060583	देवकस्तूरी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7610766	U45201MP2022PTC063021	आभीर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7648355	U40106MP2023PTC064487	टेक्नोवस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7256636	U62013MP2023PTC067514	प्रोडोनिटी एआई प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7272114	U70200MP2023PTC068311	रिफ्रामार्क कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)
नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/91—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7373441	U15400HR2012FTC045595	रीराकोइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7389001	U51909HR2012PTC047392	महालक्ष्मी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7324350	U15490HR2016PTC065242	एग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7398399	U45204HR2014PTC052038	सनबीम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7599508	U85100HR2015PTC056973	अरवीन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7279010	U74999HR2015PTC056802	फ्लेक्सी रेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7396435	U74999HR2016PTC066593	फेहाइप ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7551576	U74999HR2016PTC064294	एसएमआर इंडिया सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7331282	U52609HR2017PTC068033	रोडट्रैक इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
10	AA7481991	U72900HR2017PTC076410	अल्टम बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7219741	U80903HR2018PTC076244	कल्पना से परे आकर्षण कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7480618	U63030HR2019PTC080541	क्राउन ज्वेल एक्सपीडिशन प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7315170	U85200HR2019OPC081349	नूंह हेल्थकेयर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7266164	U52599HR2020PTC089017	आर्टियर लाइटिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7474048	U74999HR2020PTC089520	मैक्स-एम्मा बुल प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7257559	U52599HR2021OPC094517	फिशवेड हेल्थ सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7545493	U51909HR2021PTC095841	इंडोमैट एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7579081	U85194HR2021PTC095708	हेल्थटेक एल्गोरिदम प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7427512	U63000HR2021PTC093413	एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7143474	U45309HR2021PTC093290	अल्वोरॉन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7392600	U80210HR2021PTC097899	इडुअनलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7296248	U74110HR2022PTC102231	ग्लैम लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7537770	U24290HR2022PTC103762	माइक्रोप्लास्ट इंजीनियरिंग पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7173242	U24239HR2022PTC103882	जेनोबायोटेक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7210059	U72900HR2022PTC105854	कामिहाया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7123078	U74999HR2022PTC102113	ओकोस्प्री प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
27	AA7374319	U70200HR2023PTC114503	अर्पित मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/92—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7325280	U74999HP2019PTC007307	फुनार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7327692	U42101HP2023PTC010287	त्रिविक्रमये एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/93—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7604493	U80903RJ2000PTC016695	डैफोडिल कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7631042	U27105RJ2000PTC016367	सिग्मा थर्मिट प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7228137	U70101RJ1998PTC014933	भैरव नाथ कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7315910	U15499RJ2005PTC021508	कृष्णकृपा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7545794	U45201RJ2006PTC022744	रिलाएबल बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7391543	U45201RJ2010PTC031291	एलटेक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7551825	U51430RJ2013PTC043675	मैग्रम मल्टी एंकिजम प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7574336	U70101RJ2014PTC046129	जीएसएफ रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7330701	U24232RJ2007PTC024874	समन्वय फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7369803	U70200RJ2016PTC049113	शेपिंग स्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7349669	U51102RJ2013PTC044540	बी एम ट्रेडकॉन प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7323108	U80302RJ2013PTC043006	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7321271	U72900RJ2016PTC055818	एंडेमीक ईबाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7394840	U25209RJ2019PTC066519	फिक्सकॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7603693	U25190RJ2020PTC071215	कुमार पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7243774	U51909RJ2020PTC071715	ब्लू पीकॉक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7364259	U74999RJ2020PTC070636	ग्लोबविक प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7532273	U01100RJ2021PTC074288	ईवा एग्रोवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7413542	U80903RJ2021PTC074398	हनीयूनकल एडू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
20	AA7567260	U14292RJ2021PTC077765	एसबी मिनरल्स प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7449821	U45309RJ2022PTC079324	कंवल रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7148382	U64200RJ2021PTC078004	महेश इंफ्रा टेलीकॉम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7560934	U15400RJ2022PTC082214	देव रत्नगर्भा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7496164	U40106RJ2022PTC083559	मोरयाना रिन्यूएबल जोधपुर प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7510389	U46695RJ2023PTC088532	एसबीआर सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिर्की
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/94—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7527765	U33203JK2019PTC010846	ज़ीकेश रेमेडी प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7217443	U74999JK2018PTC010413	इकोशूर रिक्रूटमेंट प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिर्की
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/95—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7656101	U45202JH1990PTC004192	झुमरी तेलैया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7501977	U45309JH2017PTC010469	अंसार बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/96—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7582674	U74999UP2019PTC112355	वाईवीसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7481257	U74999UP2019PTC112754	लेट्सक्योर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7182087	U70109UP2019OPC114086	नागेश डेवलपर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7569056	U64200UP2022PTC170333	ज़ेक नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7215822	U51909UP2022PTC170332	ग्रॉबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7382598	U65910UP1992PTC014413	रेनबो वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7214073	U74900UP2010PTC040557	निर्मल पॉलीट्यूब प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7456483	U72300UP2009PTC037459	एपेक्स टेलीनेट प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7649188	U72300UP2013PTC171131	इक्वोशिफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7570999	U74120UP2011PTC047544	माइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
11	AA7367629	U27101UP1995PTC018767	डीप इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7525500	U51101UP2014PTC066072	तेरा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7220967	U74900UP2014PTC062197	पीफ्लोक्स टेक प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7261648	U74120UP2016PTC075615	केडीएम स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7531235	U74900UP2013PTC061148	डिफरेंसिया रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7208514	U70109UP2017PTC092904	नवमहाबली इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7235925	U45400UP2017PTC091439	एल्ट्रिक इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7599421	U74999UP2017PTC098821	इंटर-कॉन सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7344789	U70103UP2017PTC095647	रिजल्ट्स परसुइट्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7218326	U74999UP2017PTC094047	कॉरसकेटिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7282272	U15137UP2017OPC093130	सुनहरी फूड्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7178379	U93090UP2018PTC105325	वी2आर एचआर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7262671	U74999UP2018PTC106418	पापर्ट क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7305099	U51901UP2018PTC102031	मोहविद ट्रेडर्स एंड मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7032283	U72100UP2018OPC102847	एप्रॉजिक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7217485	U74999UP2018PTC110425	पोर्टिकेड इंफ्राग्रीन प्राइवेट लिमिटेड
27	AA7210531	U74999UP2018PTC109502	क्रियालांजिक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
28	AA7454582	U70109UP2019PTC116346	स्प्लेनगस्त इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड
29	AA7378993	U45309UP2019PTC120145	एनआरएचएम डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	AA7217225	U51909UP2019OPC122918	आरएसएस एफएमसीजी ट्रेडिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
31	AA7201794	U24110UP2020PTC125617	अल्पकेयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	AA7273787	U72900UP2020PTC129266	एमेनसर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
33	AA7275240	U24299UP2021PTC146632	सोलप्रोजेक्शन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
34	AA7208478	U51909UP2021PTC146127	वैश्य फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AA7409780	U72900UP2021PTC144653	एक्सपर्ट टेकवेयर प्राइवेट लिमिटेड
36	AA7294197	U18101UP2021OPC150936	एवीए ग्लोबल फैशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
37	AA7325564	U85100UP2021PTC152040	ईबिक्ससिटी प्राइवेट लिमिटेड
38	AA7328348	U70200UP2021PTC141799	अलाव प्राइवेट लिमिटेड
39	AA7138702	U72900UP2021OPC155946	सॉफ्टसेपलिंग इनोवेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
40	AA7627438	U34100UP2022PTC168428	जगदंबा ऑटोकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
41	AA7458885	U74999UP2022PTC159170	ग्रेट क्वेस्ट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
42	AA7190941	U74999UP2022PTC169008	श्रीजा अल्टीमेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
43	AA7613033	U72200UP2022PTC170017	स्विनिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AA7327928	U24304UP2022PTC170038	एसोशिल्ट मेडिकमेंट प्राइवेट लिमिटेड
45	AA7341837	U85110UP2022PTC173311	श्री प्रथमेश्वर अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड
46	AA7218998	U65999UP2022PLN171777	श्रीगजानन प्रगति निधि लिमिटेड
47	AA7520307	U72900UP2023PTC176173	सदारक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
48	AA7411303	U45201UP2022PTC174713	विलस रूफिंग एंड क्लैडिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
49	AA7622072	U10795UP2023PTC182595	एमएफएमएफ नाइस स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
50	AA7492495	U42909UP2023PTC187091	अरवके रिफ्रेक्टरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AA7555673	U47810UP2023PTC188072	बेबोबा रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/97—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7606305	U74994KL2000PTC013644	गैलेरिया इंटरफर्न प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7423883	U45200KL2009PTC023848	वर्टिकलहाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7508165	U63090KL2015PTC039311	बोटगुरु प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7375914	U45309KL2016PTC045718	पीएम होलिंग्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7323625	U01100KL2018PTC054663	हैम वुड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
6	AA7498223	U52520KL2021PTC069888	फाम और कुस ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7539228	U24240KL2019PTC060105	बेहदस्थ होम केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7308503	U65100KL2019PTC060487	स्पाइन 135 चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7577327	U63030KL2019PTC060557	फाइव ओशनस मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7630283	U72900KL2019PTC058701	मेथड निन्जाज प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7521490	U31909KL2020PTC062761	जेबीकेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7392081	U72900KL2020PTC064158	ज़ीडेक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7367053	U14290KL2020PTC063760	कैवेली ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7201587	U45209KL2020PTC065267	गोल्डनकीपीएमसी प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7193959	U24299KL2021PTC067078	ईवीआईडी मेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7522355	U24236KL2020OPC066241	एएनएसमेड लाइफ केयर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7566178	U18101KL2020PTC066032	वाओमा प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7474514	U72200KL2021PTC071295	लूप्स11 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
19	AA7631309	U72900KL2021PTC071910	नूरनल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7583745	U52609KL2022PTC079249	एसएएमबी ट्रेडिंग और एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7541528	U43309KL2023PTC081156	एक्वाटेक्चर डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7488711	U53200KL2023PTC081630	आईटीएल एक्सप्रेस वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/98—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7207089	U74300WB1996PTC081743	स्काल्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7285191	U74300WB2004PTC098570	अरुण साइन पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7398487	U51909WB2004PTC100266	मधुरिमा ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7523112	U72900WB2022PTC257553	एस्ट्राकावाच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7652530	U74900WB2007PTC118253	सिल्वर ई-डेटा प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7214839	U74120WB2008PTC121479	एमजे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7331437	U74120WB2008PTC124676	पीएम मेघा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7207071	U19116WB2011PTC157380	पैनोरमा लेदर प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7219058	U74999WB2011PTC158775	जी एफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7510573	U74999WB2011PTC160369	अरिहंत डेरिवेटिव्स और इक्वि प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7623064	U51909WB2011PTC161409	सत्यनारायण मार्कोम प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7186172	U51909WB2012PTC178712	सबलाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7228530	U74999WB2012PTC182283	सवीटच एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7559752	U45400WB2014PTC202809	गुंजन ड्रीमस्टेज़ प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7245321	U70109WB2011PTC166412	तिरूपति इन्फ्रानिकेतन प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7157177	U74900WB2014PTC202360	अल्टीमेट होमपेंट प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7292528	U74900WB2014PTC200740	गैप सेलिब्रेशन एंड इवेंट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
18	AA7058770	U74900WB2015PTC209046	ईएल होगर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7285780	U74999WB2016PTC216332	सीज़ेटेक एंटीक प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7489627	U93000WB2017PTC222221	अग्रवाल डिजिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7321764	U55209WB2017PTC221568	एटीवीआई हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7561499	U27320WB2018PTC225252	एड्रिट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7610204	U55100WB2014PTC202556	गुंजन लिकर प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7624799	U74999WB2018PTC225619	अल्मिटास यूनिकस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7404517	U52520WB2019PTC234635	अंजलिकेयर सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7216644	U60221WB2020PTC237368	ट्रेडकॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
27	AA7284682	U70109WB2020PTC241346	हावड़ा क्लॉथ हब प्राइवेट लिमिटेड
28	AA7211392	U51300WB2021PTC247656	त्रिहान इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
29	AA7242760	U51494WB2021PTC247490	इकोनेक्स्ट इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	AA7372616	U15549WB2021PTC248641	एपीजे टी एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
31	AA7518598	U21099WB2021PTC248539	श्री बंशी लक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
32	AA7661698	U51909WB2021PTC247928	एलएसके इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AA7520588	U18109WB2021PTC250409	रेस्कमेड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
34	AA7493659	U72900WB2022PTC252565	लिफ्टपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AA7303344	U24299WB2022PTC253332	ग्रीनेक्स बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AA7298084	U45202WB2022PTC256554	नंदीदास प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AA7157292	U55101WB2023PTC266939	जलछाबी रिज़ॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/99—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7607586	U72900MH2021PTC359094	सिम्पलीजेम आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
2	AA7197686	U27100MH1987PTC045123	एके पावरलाइन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,
3	AA7510483	U34300MH1991PTC061940	राहुल टेक्नोकॉफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,
4	AA7424882	U74210MH1995PTC084635	सिद्धेश कंसल्टेंसी एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7261155	U27203MH1996PTC096197	एस्कॉन अरेबियन एल्युमिनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7334653	U67120MH1995PTC086964	भरारी मेटल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7572448	U70100MH1996PTC102899	न्यू एरा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7245073	U27202MH1998PTC116181	श्री अष्टविनायक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7549859	U24296MH2022PTC390965	आनंदराम ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7422496	U92120MH2007PTC167237	गो कैम फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7209140	U74140MH2007PTC173293	कीजाँब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7651949	U74900MH2008PTC180027	नेबुला मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7472039	U31909MH2009PTC192791	वी डी पाटकर इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7563663	U74140MH2010PTC201102	नवमंत्रा कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7345587	U72900MH2010PTC204821	लॉन्ग रेंज सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7214378	U85191MH2012PTC238949	फोर्टे वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7177520	U74999MH2012PTC228010	राघवेंद्र एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7160183	U52100MH2013PTC248793	लुमेन्स प्रोजेक्ट लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7665635	U51909MH2003PTC143339	अभ्युदय कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7568307	U74999MH2014PTC258245	एम्स मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7216409	U74900MH2015PTC269825	निट्रज ग्लोबल आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7300117	U72501MH2015PTC268555	अर्बनिटी मल्टीसोल प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7094875	U93000MH2012PTC226340	सुसाज बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7297432	U74999MH2015OPC267108	डेनिम ओवर मी डेनिम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
25	AA7277282	U15549MH2016PTC287658	आर्यओम मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7324305	U72200MH2008PTC288446	रोम स्पेस ट्रेवल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
27	AA7563302	U72200MH2016PTC274259	फ्रांसॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
28	AA7144249	U75210MH2016PLC273310	रिलायंस कूज़ एंड टर्मिनल्स लिमिटेड
29	AA7634563	U74999MH2016PTC283129	स्काईस्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
30	AA7219797	U36101MH2015PTC262828	वुडबॉक्स फर्निशिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
31	AA7260765	U72900MH2016PTC281171	केएपीसी डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
32	AA7619482	U85320MH2017PTC293680	अमेया लेजर एंड कॉस्मेटिक्स सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
33	AA7456807	U74999MH2016PTC287041	बेलूगा मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
34	AA7590932	U74999MH2017PTC295201	टॉपवे मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
35	AA7655283	U74999MH2017PTC299527	लीगेम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
36	AA7293877	U74999MH2017PTC295812	टीबीडी पावर एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड
37	AA7633937	U74999MH2017PTC297067	हैसुई इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
38	AA7540116	U45500MH2018PTC312072	जीबी इंडस्ट्रियल पार्क चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
39	AA7278127	U93090MH2018PTC313356	प्रेक्षाफाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड
40	AA7199329	U15490MH2018PTC313655	स्वहृद्रेयसा डेयरी एंड एगो टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड
41	AA7450511	U33309MH2018PTC314328	बुलशार्क मेडिसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
42	AA7435811	U74999MH2018PTC315683	सुपरलेटिव टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
43	AA7613387	U74999MH2018PTC308165	लीकिंग नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AA7404192	U41000MH2019PTC326934	आरएमएन कैलिब्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
45	AA7466973	U01100MH2019PTC328450	नेचुरल गोल्ड एगो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड
46	AA7442295	U72900MH2019PTC332034	पीपलटेक डेल्टा इम्पैक्टचेन प्राइवेट लिमिटेड
47	AA7570985	U85110MH2019PTC332133	डॉकमेट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
48	AA7081074	U74999MH2019PTC323900	ग्लोबल सिल्वरलिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
49	AA7215764	U72900MH2020PTC339197	पारवेंस ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
50	AA7287420	U15490MH2020PTC338718	रिलेश ब्लेड्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AA7490180	U51909MH2020PTC339891	ट्रिवन पेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
52	AA7155279	U74900MH2020PTC339688	पीएमएसएसएसजे ड्रॉपशीपर्स प्राइवेट लिमिटेड
53	AA7523415	U67100MH2020PTC337479	इनफिनिट लूप कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
54	AA7183432	U93000MH2018PTC312255	सीनेक्स्ट मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
55	AA7646860	U29309MH2020PTC343839	सिद्धिविनायक स्पेशल प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड
56	AA7484292	U67120MH2020PTC340978	बीपीआर फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
57	AA7282497	U74999MH2020FTC348985	नाऊडॉक्टर प्राइवेट लिमिटेड
58	AA7415218	U60200MH2021PTC354609	राजावत लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
59	AA7527585	U72900MH2020PTC348273	डेली डैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
60	AA7633671	U51909MH2021PTC361386	सिल्वा ऑर्टस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
61	AA7548454	U29309MH2021PTC360189	क्रोनेज प्राइवेट लिमिटेड
62	AA7350542	U92490MH2021PTC359142	घराट न्यूज प्लेटफार्म प्राइवेट लिमिटेड
63	AA7625390	U51909MH2021PTC360378	आवबीम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
64	AA7408842	U74999MH2021PTC359388	सीट एट दा टेबल प्राइवेट लिमिटेड
65	AA7462485	U74999MH2021PTC366799	शिवालिक मल्लीपर्स प्राइवेट लिमिटेड
66	AA7408743	U24304MH2021PTC361799	अपौसे लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
67	AA7251589	U74999MH2021PTC361330	इंटरन थ्योरी कैरियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
68	AA7152415	U74999MH2021PTC364364	गुड स्किन प्राइवेट लिमिटेड
69	AA7452542	U72900MH2021PTC364491	पेइफाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
70	AA7395724	U15135MH2021PTC365806	गोल्डन नेस्ट प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड
71	AA7234006	U22300MH2021PTC367579	रिफ्लेक्शन प्रिंटपैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
72	AA7321908	U25209MH2022PTC374523	एक्सोल्यूट प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
73	AA7544310	U72900MH2022PTC375148	क्वांटम लिक्विडिटी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
74	AA7483270	U74999MH2022PTC375524	मेरापासल प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड
75	AA7215860	U29309MH2022PTC386255	मिरार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
76	AA7288827	U67100MH2022PTC386427	नेहाट पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
77	AA7415977	U01210MH2022PTC387049	वक्सना बकरी उत्पादक कंपनी लिमिटेड
78	AA7452758	U29100MH2022FTC382946	स्टेप इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
79	AA7505576	U21099MH2022PTC378612	जीटीसी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
80	AA7049511	U74999MH2023PTC397216	एसनैकेड प्राइवेट लिमिटेड
81	AA7426605	U52101MH2023PTC399116	फ्रेश टेक कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
82	AA7645682	U51909MH2022PTC394110	सिविस्तान इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
83	AA7191073	U85306MH2023PTC400288	कंपन प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट लिमिटेड
84	AA7626258	U52292MH2023PTC401703	जेएनवाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
85	AA7577774	U39000MH2023PTC401182	एक्सक्लूसिव लिनेन रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
86	AA7447523	U68100MH2023PTC402068	माइलेन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
87	AA7497056	U86201MH2023PTC414967	क्लिनसोल प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनी रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/100—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7578952	U72900OR2022PTC040717	डीसीक्रिप्टर्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7334036	U72200OR1996PTC004390	एनयू होराइजन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7344858	U70101OR2012PTC015298	एस.एस.इंफ्रा-सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7345831	U14291OR2006PLC008983	ब्यूटीफुल जेम्स लिमिटेड
5	AA7564348	U70109OR2018PTC028631	स्वयंस्वरूपा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
6	AA7604247	U55101OR2019PTC032098	रेयकोर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7219624	U80101OR2019PTC032334	जॉयफुल नॉइज़ प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7327558	U85300OR2020PTC034270	उत्कल संजीवनी अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7566169	U45309OR2020PTC034268	समरश्रद्धा हाउस प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7271373	U74999OR2020PTC034789	टिक्मा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7293049	U01110OR2021PTC036703	हाइड्रोएक्वा फार्म प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7434076	U70109OR2022PTC038578	मिलन बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7236664	U72900OR2022OPC038579	गैजेटवेबजेट डिजिटल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/101—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7649840	U72900PY2020PTC008590	ऑनवॉलेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/102—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7547296	U65993PN1995PTC084834	सुशोनी होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7322995	U72200PN1998PLC012777	एलीट सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड
3	AA7236543	U24119PN2000PTC015274	पॉपुलर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7547984	U45400PN2008PTC132268	अक्षदा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7221109	U65992PN2012PTC143170	कुडोस चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7218060	U74999PN2014PTC152322	एवी इन्वेंचर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7620400	U72200PN2015PTC156171	वर्कआउटगुरु टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7498177	U29100PN2017PTC169000	क्लिमा ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7192535	U51909PN2021PTC198831	फ्लाईफिशकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7574759	U74999PN2017PTC171811	आक्स डाइमेंशन्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7513573	U74999PN2018PTC177952	टॉम्जो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7601254	U93090PN2018PTC179282	आईडियानेस्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7196162	U72900PN2019FTC185103	एडी .नेट डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7312064	U74999PN2019PTC186557	सुसंकल्प एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
15	AA6962782	U15134PN2020PTC190487	नूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AA7605673	U72900PN2020PTC189503	मैनिट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7401057	U36100PN2020PTC196039	मनाम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7602686	U51909PN2020PTC197022	नवभारती मार्ट ई-बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7455621	U74999PN2022PTC208899	बायमेक मर्चेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7509574	U74999PN2022PTC209653	वर्कनेक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7102715	U65999PN2022PLN207695	धनश्री राम निधि लिमिटेड
22	AA7435988	U25190PN2022PTC207550	एजाइल सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7150458	U40300PN2022PTC213389	सोरिगिन रेस तिरुचुली (टीएन) प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7513575	U51909PN2022PTC209345	ऑलट्रांज एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7462052	U74999PN2022PTC214445	एनिमोरी डीकार्बोनाइजेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7160615	U15100PN2022PTC210786	बायोलाइफ बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
27	AA7142368	U85100PN2022PTC217285	पीवीडी फिटनेसस्क्रायर प्राइवेट लिमिटेड
28	AA7038554	U72200PN2022PTC217110	कॉन्ग्रेसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
29	AA7523281	U69202PN2023PTC221383	आर्टिकॉन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
30	AA7495382	U31001PN2023PTC222964	इटालक्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/103—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7408305	U74999TG2017PTC116441	इंद्रासन एंड ग्रैंडसंस चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7187880	U99999TG1994PTC018197	कादिरिश फाइनंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड,
3	AA7526902	U70102TG2005PTC046948	टेराफिरमा इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7526155	U71300TG2005PTC046360	बुक स्टोन्स होम सुइट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7141948	U24222TG2004PTC044218	श्री वज्र पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6974028	U24232TG2008PLC057391	इकोलॉजिकल केमिकल्स लिमिटेड
7	AA7161998	U74900TG2008PLC058294	इकोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
8	AA7524834	U74140TG2015OPC097197	ऑनलाइन न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
9	AA7419805	U72900TG2014PTC092383	टैक्सजेनियोनलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7207647	U72300TG2015PTC102054	थिंक डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7122462	U67190TG2017PTC117030	सलाद फाइनंसियल प्राइवेट लिमिटेड
12	AA7210041	U36999TG2017PTC117224	श्री सिद्धिधाता एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7233303	U15120TG2018PTC126547	प्रवरा इनोवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7280397	U72901TG2019OPC132605	ब्रेटेल टेक्नोलॉजीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7563825	U93090TG2019PTC136585	रेनू एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
16	AA7234346	U74999TG2020PTC141399	लाइसेंसबानाओ फूड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AA7545333	U74900TG2020PTC138554	मित्रा मैरिजेज प्राइवेट लिमिटेड
18	AA7230697	U72900TG2020PTC143113	आधियोन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
19	AA7525777	U85110TG2020PTC145313	प्रथम ऑर्गेनिक्स एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
20	AA7323414	U63040TG2021PTC148569	ब्लैक क्लोवर प्राइवेट लिमिटेड
21	AA7222346	U92190TG2020PTC146609	एएच न्यूज एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
22	AA7526154	U74999TG2020PTC146047	निस्वाक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
23	AA7623512	U72200TG2021FTC150916	दोजोको टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
24	AA7449861	U26940TG2021PTC154123	आरकेओएन आरएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25	AA7287059	U93090TG2021PTC148978	टोटोइस क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड
26	AA7263219	U45202TG2021PTC153365	माइनेस्ट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AA7620701	U72900TG2021PTC153805	क्रिप्टोनस्केयर प्राइवेट लिमिटेड
28	AA7336742	U72900TG2021PTC156984	इडु।2। प्राइवेट लिमिटेड
29	AA7186035	U72900TG2021PTC158316	ऑन हर वे प्राइवेट लिमिटेड
30	AA7248469	U74999TG2022PTC160143	नेटिव हार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AA7403556	U74999TG2021PTC156670	फिंगर क्लैप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
32	AA7566025	U74999TG2022PTC169721	एनरिच3डी मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/104—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7600181	U85500UT2023OPC015525	क्लाइबिन इंस्टीट्यूट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7386130	U72900UR2023PTC015161	एग्रो फार्मप्रेन्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
3	AA7379144	U01110UR2022PTC014748	ग्रो ईको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7599534	U73100UR2021PTC012972	सुएनोस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7181780	U72900UR2022PTC013497	राधाकृष्ण कनेक्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7022164	U67190UR2022PTC013605	केद फाइनंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7454991	U72900UR2021PTC012304	हेलोसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7115419	U65990UR2021PLN012285	श्री अक्षरा संचय निधि लिमिटेड
9	AA7375722	U52609UR2019PTC009646	सीएनएफआरटी अटायर प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7294807	U74999UR2018PTC008989	हार्डलैंड ट्रेकर्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिर्की
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुडगाँव-122050, दिनांक 7 मई 2024

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/105—

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
1	AA7268415	U65992AP2009PTC064633	श्री रुक्मिणी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA7580554	U72400AP2014PTC093325	गिरोस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AA7580945	U01403AP2016PTC098528	सिप्रिका एग्रीस प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7367502	U90009AP2019PTC112993	कंथुरी पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA7454089	U36990AP2020PTC114222	कुप्पम इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	AA7201362	U72900AP2020PTC115186	वर्टूसोल प्राइवेट लिमिटेड
7	AA7485771	U45401AP2020PTC116085	ओह माय होम्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AA7199941	U55209AP2021PTC116973	तलध्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA7663965	U72900AP2021PTC118291	पाइन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
10	AA7582446	U55101AP2021OPC119673	पोपलिन रेजीडेंसी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
11	AA7509584	U72900AP2022PTC123482	एस्टेनप्रो इंडस्ट्रियल साइंस प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	SRN	CIN	Hindi Name
12	AA7229476	U51909AP2022PTC123657	एस्टीम ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
13	AA7543992	U47912AP2023PTC110801	स्लीक कल्ट अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AA7453204	U62099AP2023PTC110706	टेकजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
15	AA7522604	U86905AP2023PTC111873	ट्रेस डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय, मध्यप्रदेश

ग्वायिलर-474009, दिनांक 2 मई 2024

सं. ROC-G/LLP-24/publication/2024/184—लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 37 के उपनियम 3 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल.एल.पी के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त एल.एल.पी. विघटित हो गई है।

S.No.	LLPIN	एलएलपी नाम
1	ABA-8390	एडिट्रॉनडिजिटलमीडिया एलएलपी
2	AAAY-9019	गर्व वेंचर्स एलएलपी
3	AAX-2680	फोर्क एण्ड स्पाइस एलएलपी
4	AAS-9740	रुहचित्रा इमेजिंग सर्विसेज एलएलपी
5	AAP-8360	ग्रीनेक्स नॉन वूवेन्स एलएलपी
6	AAJ-3254	वन स्टॉप सर्विसेज इंडिया एलएलपी
7	AAC-1750	डीबी हेरिटेज एलएलपी
8	ABA-0626	योग इंटरप्राइजेज एलएलपी
9	AAZ-6408	ओमल्ला एडवर्टाइजिंग एलएलपी
10	AAZ-5189	आरएसमालविया सन्स ईकॉमर्स एलएलपी
11	AAW-5689	सुपरप्रोकिड्स ई-लर्निंग एलएलपी
12	AAU-5034	ऑनली एग्स एलएलपी
13	AAU-0512	होमसर्व हाइपरलोकल एलएलपी
14	AAT-9339	राजमनी मीडियाहाउस एलएलपी
15	AAT-4021	स्काइलोरिया एलएलपी
16	AAS-9851	अरोम्य फूड एण्ड बेवरेजेज एलएलपी

S.No.	LLPIN	एलएलपी नाम
17	AAQ-2585	नेक्स्ट सम ऑफ सिक्स कन्सल्टिंग एलएलपी
18	AAQ-0246	लक्ष्यभेद मार्केटिंग सर्विसेज एलएलपी
19	AAK-4009	वसुंधरा कॉर्पोरेटवाइजर एलएलपी
20	AAC-3614	अनाया इम्पेक्स एलएलपी

मुकेश कुमार सोनी
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 2nd May 2024

No. 44/V.Judges/2024/SCA(G)—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, Hon'ble the Chief Justice of India has directed that the Supreme Court will be closed for the annual Summer Vacation from Monday, the 20th May, 2024 to Sunday, the 7th July, 2024 (both days inclusive) and will reopen on Monday, the 8th July, 2024.

Under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to constitute the following Vacation Benches for the Summer Vacation, 2024:—

Period	Vacation Benches
20.05.2024 to 26.05.2024	Hon'ble Ms. Justice Bela M. Trivedi and Hon'ble Mr. Justice Pankaj Mithal
	Hon'ble Mr. Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol
	Hon'ble Mr. Justice Dipankar Datta and Hon'ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma
27.05.2024 to 02.06.2024	Hon'ble Mr. Justice J.K. Maheshwari and Hon'ble Mr. Justice K.V. Viswanathan
	Hon'ble Mr. Justice Pankaj Mithal and Hon'ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma
	Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon'ble Mr. Justice Aravind Kumar
03.06.2024 to 09.06.2024	Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kumar and Hon'ble Mr. Justice Augustine George Masih
	Hon'ble Mr. Justice Aravind Kumar and Hon'ble Mr. Justice Sandeep Mehta
	Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra and Hon'ble Mr. Justice K.V. Viswanathan
10.06.2024 to 16.06.2024	Hon'ble Mr. Justice Vikram Nath and Hon'ble Mr. Justice Sandeep Mehta
	Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kumar and Hon'ble Mr. Justice Augustine George Masih
	Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra and Hon'ble Mr. Justice Prasanna Bhalachandra Varale

17.06.2024 to 23.06.2024	Hon'ble Mr. Justice Vikram Nath and Hon'ble Mr. Justice S.V.N. Bhatti
	Hon'ble Mr. Justice Rajesh Bindal and Hon'ble Mr. Justice Prasanna Bhalachandra Varale
24.06.2024 to 30.06.2024	Hon'ble Mr. Justice Abhay S. Oka and Hon'ble Mr. Justice Rajesh Bindal
	Hon'ble Mrs. Justice B.V. Nagarathna and Hon'ble Mr. Justice Ujjal Bhuyan
	Hon'ble Mr. Justice Manoj Misra and Hon'ble Mr. Justice S.V.N. Bhatti
01.07.2024 to 07.07.2024	Hon'ble Mr. Justice C.T. Ravikumar and Hon'ble Mr. Justice Manoj Misra
	Hon'ble Mr. Justice Sudhanshu Dhulia and Hon'ble Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah
	Hon'ble Mr. Justice J.B. Pardiwala and Hon'ble Mr. Justice Ujjal Bhuyan

During Summer Vacation the Registry will remain open from 10:00 am to 05:00 pm for all the Officers and staff members of the Registry except Group-C (non-clerical) staff in whose case timings will be from 09:30 am to 05:30 pm on all the days except Saturdays (other than the 6th July, 2024), Sundays and holidays when it shall remain closed.

MAHESH T. PATANKAR
Registrar (Court & Building)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
[CENTRE FOR PROCESSING ACCELERATED CORPORATE EXIT (C-PACE)]

FORM No. STK –6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/80—

S No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7157012	U01132AS1982SGC001977	ASSAM SYNTEX LIMITED
2	AA7328616	U51109AS2010PTC009922	ASSORTED DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
3	AA7649534	U45200AS2016PTC012303	DJB INFRACOM PRIVATE LIMITED
4	AA7448084	U74999AS2021PTC022004	SVAS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years

and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY

Assistant Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/81—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7443355	U62013KA2024PTC183129	PINSTAR 24 PRIVATE LIMITED
2	AA7223242	U62013KA2023PTC174141	DABBLEDOP PRIVATE LIMITED
3	AA7137092	U45309KA2022FTC168304	NOVEL BTP PRIVATE LIMITED
4	AA7461748	U74999KA2022PTC166923	HARESHNA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5	AA7573629	U92490KA2022PTC161622	GREATBROS STUDIOS PRIVATE LIMITED
6	AA7426506	U01110KA2022PTC162712	PROTEAN AGRI & ALLIED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AA7424026	U72900KA2022PTC164568	PLUCO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	AA7174319	U72900KA2016OPC098411	CELESTICA TECH INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
9	AA7407947	U93000KA2019OPC121320	SEACAPE SHIPPING AND TRADING (OPC) PRIVATE LIMITED
10	AA7340556	U15490KA2019PTC122267	DAFEDAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
11	AA7538261	U72100KA2021FTC156054	RAINTECH FINANCE PRIVATE LIMITED
12	AA7530364	U72200KA2021PTC152273	E-SELFSERVICE KART PRIVATE LIMITED
13	AA7183312	U23100KA2022PTC163730	MIG BIO FUEL PRIVATE LIMITED
14	AA7519054	U17299KA2021PTC153807	TIRANG RETAILS PRIVATE LIMITED
15	AA7408174	U72900KA2019PTC121792	MASTERSDEN STUDIO PRIVATE LIMITED
16	AA7437360	U72200KA2021PTC153880	CIRREUM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
17	AA7425065	U40106KA2019PTC121824	SURYARTH ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
18	AA7505612	U72900KA2021PTC155215	VELACITI AUTOMOTIVE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
19	AA7291141	U65990KA2022PLN157133	YASEEN KHAN NIDHI LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
20	AA7526650	U72900KA2021PTC151857	MULTITUDE AUTOMATION PRIVATE LIMITED
21	AA7199253	U34300KA2021PTC154613	ROCKHAMMER HEAVY ENGINEERING PRIVATE LIMITED
22	AA7204730	U74999KA2021PTC154689	OPENHUB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
23	AA7470797	U80900KA2021PTC145349	EDYOULEAD LIFE INDIA PRIVATE LIMITED
24	AA7372047	U40105KA2021PTC151133	PRIMECO POWER PRIVATE LIMITED
25	AA7634280	U70100KA2016PTC095765	CLICHD DINING PRIVATE LIMITED
26	AA7507468	U72900KA2021PTC142846	NIVAYAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27	AA7318536	U74999KA2020PTC141578	FRATERNITY LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
28	AA7167768	U74910KA2020PTC141934	DOLPHIN HR SOLUTIONS AND SKILL DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
29	AA7430057	U74110KA2020PTC140887	AEQUS MATERIAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
30	AA7634261	U15209KA2020PTC137172	MAITO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
31	AA7427160	U74999KA2020PTC137683	KALATAPASYA PRIVATE LIMITED
32	AA7571286	U72900KA2020PTC138403	AVIRF LABS PRIVATE LIMITED
33	AA7583752	U72200KA1996PTC020444	FBD INFOTECH PRIVATE LIMITED
34	AA7530823	U72900KA2019PTC128695	NUNTUM MEDIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
35	AA7232295	U28999KA2019PTC128728	ULLASA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
36	AA7623341	U24304KA2020PTC134675	SANTABAY MEDITECH PRIVATE LIMITED
37	AA7508555	U93000KA2020PTC131755	SOCIMY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
38	AA7580083	U72900KA2019PTC128824	PRAGATITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
39	AA7185392	U65992KA2018PTC118070	KAVIRAM CHIT FUND PRIVATE LIMITED
40	AA7362122	U01100KA2018PTC115395	BEVY AGROTECH PRIVATE LIMITED
41	AA7560404	U74999KA2018PTC117227	SIGNBEES PRIVATE LIMITED
42	AA7379397	U74999KA2018PTC111903	VERTIUM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
43	AA7555385	U72900KA2018PTC112880	ULTRAPYE INDIA PRIVATE LIMITED
44	AA7207845	U74999KA2017PTC105096	KAROMS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
45	AA7643809	U72900KA2017OPC108171	IKYA MEDICAL SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
46	AA7509266	U74999KA2017PTC101214	BUMPTY DRUMS MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
47	AA6971481	U45400KA2016PTC096088	HONEY PROPERTIES BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
48	AA7625364	U93090KA2017PTC102642	DICTUM CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
49	AA7361101	U74999KA2016PTC092598	WINETRA ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
50	AA7630404	U72200KA2016PTC085494	APPTESO SOFTWARE PRIVATE LIMITED
51	AA7160495	U65992KA2016PTC086872	RESOURCE CHITS INDIA PRIVATE LIMITED
52	AA7312210	U18109KA2015PTC082658	TAURIO FASHION PRIVATE LIMITED
53	AA7657840	U80301KA2016PTC085478	EDUAXIS EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
54	AA7527754	U60200KA2014PTC076081	MARATHON LOGISTICS PRIVATE LIMITED
55	AA7547293	U70101KA2009PTC050877	KRS INFRA PRIVATE LIMITED
56	AA7489468	U72200KA2011PTC057910	PNC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
57	AA7262294	U74900KA2010PTC054430	DKR ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
58	AA7552572	U45300KA2008PTC048643	DELTA BUILDPRO INDIA PRIVATE LIMITED
59	AA7137733	U35301KA2006PTC040450	SOBHA AVIATION AND ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
60	AA7372669	U55101KA1992PTC012949	EXQUISITE CUISINES PRIVATE LIMITED
61	AA7138402	U45201KA2008PTC047073	SOBHA HITECH CITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
62	AA7174156	U45202KA2007PTC042199	SOBHA MAPLETREE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
63	AA7487262	U55101KA2006PTC041189	ETA STAR FACILITIES MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
64	AA7578584	U27141KA2007PTC041762	SOBHA JEWELLERY PRIVATE LIMITED
65	AA7365927	U47912KA2023PTC176684	CRIYA PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/82—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7343908	U74999BR2017PTC033338	SNAPHY LABS PRIVATE LIMITED
2	AA7238125	U51909BR2017PTC035068	ARBIND HERITAGE PRIVATE LIMITED
3	AA7541878	U72900BR2018PTC039612	CIAM LOGIN RADIUS PROTECH PRIVATE LIMITED
4	AA7181637	U93000BR2020PTC047944	INDRANI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
5	AA7564376	U45400BR2021PTC050026	NXDEVELOPER PRIVATE LIMITED
6	AA7186911	U67190BR2022PTC060816	KANRA FINSERV PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years

and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/83—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7572069	U72900CH2019PTC042824	MLAIA PRIVATE LIMITED
2	AA7473164	U17200PB2013PLC037062	OSWAL WOOL & ALLIED LIMITED
3	AA7383796	U70200PB2017OPC047007	GLITZY BUILDSWELL (OPC) PRIVATE LIMITED
4	AA7393684	U55101PB2020PTC051926	SUKOONAT HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
5	AA7230450	U72900PB2021PTC053606	MAKRIS PRIVATE LIMITED
6	AA7230989	U15400PB2022PTC055507	ISVP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AA7348972	U63030PB2022PTC055250	FIRSTBOX EXPRESS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following company under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/84—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7218002	U27320CT2021PTC011365	MABRIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY

Assistant Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/85—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7180205	U72900TN2019PTC126788	RISAAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AA7200750	U93090TN2019PTC127273	SHIKSHANA SERVICES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3	AA7420782	U51909TN1993PTC050180	GOLDEN LAKE MERCHANTS PRIVATE LIMITED
4	AA7552771	U72200TN2003PTC051517	WINWAYS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
5	AA6760409	U74999TN1997PTC038723	HAMPTON PROPERTIES PRIVATE LIMITED
6	AA7388186	U72900TN2022FTC155710	MAHADATA SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
7	AA7211756	U72900TN2010PTC077120	KRIOS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	AA7411384	U74999TN2011PTC083159	KHL CONTAINERS PRIVATE LIMITED
9	AA7288993	U60200TN2014PTC098106	PS SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
10	AA7434806	U74900TN2013PTC093599	CORELLIS CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
11	AA7515066	U74999TN2015PTC102674	EECHA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
12	AA7285645	U74999TN2012PTC084445	VENKATESWARA IMAGING AND DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
13	AA7486907	U74999TN2016PTC113393	HEGURU RIGHT BRAIN DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED
14	AA7218303	U01110TN2015PTC100774	STRATFIELD FARMS PRIVATE LIMITED
15	AA7206643	U51100TN2008PTC067165	PLUMBING AND BOREWELLS SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
16	AA7085419	U15137TN2017PTC118808	PRAYAN DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
17	AA6963708	U72200TN2018PTC120941	ITORASOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
18	AA7377435	U72900TN2017PTC119128	CAUSEPOINT TECH INDIA PRIVATE LIMITED
19	AA7037990	U74999TN2018FTC122138	AASL AUTOLABS PRIVATE LIMITED
20	AA7268549	U74140TN2020PTC135053	PRAKRITI ADVISORS PRIVATE LIMITED
21	AA7487681	U72900TN2020PTC135853	H2B NEXGEN INDIA PRIVATE LIMITED
22	AA7239671	U65999TN2020PTC137292	PAYFX FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
23	AA7435440	U65999TN2020PTC136875	NPA FORTUNE INVESTMENT PRIVATE LIMITED
24	AA7194326	U45201TN2020OPC136387	FIORICK CONTRACTING (OPC) PRIVATE LIMITED
25	AA7239858	U24299TN2021PTC140942	ALABITE MINERALS AND BUILDING MATERIALS PRIVATE LIMITED
26	AA7527004	U51505TN2020PTC139819	FLOKX IT SERVICES AND TRADING PRIVATE LIMITED
27	AA7483879	U85110TN2021PTC142995	RANI MALLI'S VISION PRIVATE LIMITED
28	AA7488744	U40106TN2021PTC141500	INDENERGY HYPOWER PRIVATE LIMITED
29	AA7629296	U72900TN2021OPC146877	AADIMANTRA INNOVATIVE SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
30	AA7280501	U23209TN2021PTC146638	AAUS GREEN POWER PRIVATE LIMITED
31	AA7050662	U72900TN2021PTC146553	PICANOTE PRIVATE LIMITED
32	AA7250190	U24290TN2021PTC148804	BHARATHI MEDICAL CENTER PRIVATE LIMITED
33	AA7590614	U74999TN2022PTC150567	TAVISA ENERGY PRIVATE LIMITED
34	AA7661872	U72900TN2022PTC152348	ENVISION SIM PRIVATE LIMITED
35	AA7372864	U65100TN2022PTC154781	MARINAA MICRO FINANCE PRIVATE LIMITED
36	AA7326544	U40106TN2022PTC156993	BELMOPS ENERGY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
37	AA7626768	U25200TN2022PTC157776	MAILAM MANUFACTURING AND PACKAGING PRIVATE LIMITED
38	AA7151606	U64990TN2023PTC161805	JAYAVIN FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
39	AA7581181	U56210TN2023PTC161709	FOODSTACY PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the

memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY

Assistant Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/86—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7175052	U24304TZ2017PTC028348	CLARION CARBON PRIVATE LIMITED
2	AA7543602	U45500TZ2016PTC027815	PEPIQ HOMES PRIVATE LIMITED
3	AA7477631	U72900TZ2017PTC028615	COMPITSS INDIA PRIVATE LIMITED
4	AA7224452	U72900TZ2020PTC034106	ART EAGLE ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
5	AA7108181	U35999TZ2020PTC034797	RAKSHA INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
6	AA7193840	U45309TZ2021PTC035569	SEYYONE VENTURES PRIVATE LIMITED
7	AA7215319	U51900TZ2021PTC037829	SVAS GRANITES PRIVATE LIMITED
8	AA7077074	U74999TZ2021PTC037463	VIBE INTEGRATED SERVICES PRIVATE LIMITED
9	AA7547009	U62099TZ2023PTC029816	SMARTFUSION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
10	AA7238554	U62010TZ2023PTC030072	SKYBEAN INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/87—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7204055	U15549DL2019PTC345915	AL-SALAMAN FOOD PRIVATE LIMITED
2	AA7506341	U50400DL2019PTC345914	RAK AUTO TRADING PRIVATE LIMITED
3	AA7476983	U80900DL2019PTC345956	VESTERBACKA EDUCATION DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
4	AA7340458	U74899DL1987PTC027894	SUPER FINE BUILDERS AND PROMOTORS PRIVATE LTD
5	AA7171865	U74899DL1985PTC020484	P.R. CHITS PRIVATE LIMITED
6	AA7348243	U74899DL1994PTC057753	VIETRADE TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
7	AA7636152	U74899DL1993PLC054361	KUBER FERRO ALLOYS LIMITED
8	AA7342002	U74899DL1994PTC061367	TRUE CRAFT PRIVATE LIMITED
9	AA7377459	U67190DL1996PTC075105	RAWALSUN VESTCON PRIVATE LIMITED
10	AA7521713	U74899DL1990PTC042370	CNM LEASING AND FINANCEE PRIVATE LIMITED
11	AA7525055	U74899DL1991PTC044889	CLASSIC EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
12	AA7538031	U65929DL1996PTC076411	VAIDAH LEASE AND FINANCE PRIVATE LIMITED
13	AA7507607	U15500DL1991PTC046265	SKY PRINTS PRIVATE LIMITED
14	AA7214857	U17115DL1996PTC079177	SHIV-OM CORRU-FAB PRIVATE LIMITED
15	AA7217129	U63040DL1995PTC074614	ACME TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
16	AA7196665	U72200DL2000PTC104408	NETLINK E SERVICES PRIVATE LIMITED
17	AA7665659	U74140DL2001PTC113521	GSK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
18	AA7204226	U72900DL2000PTC104933	AROUNDTOWN COM PRIVATE LIMITED
19	AA7602344	U24239DL2004PTC124588	SHIV SHAKTI SURGICALS PRIVATE LIMITED
20	AA7563611	U63013DL2003PTC118887	RIVIERA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
21	AA7544004	U18102DL2003PTC118773	UPSHA TEX CREATIONS PRIVATE LIMITED
22	AA7215870	U24246DL2005PTC137794	SHEENA BEAUTY CARE PRIVATE LIMITED
23	AA7155506	U74899DL2005PTC141357	C PEARL REAL ESTATE CONSULTANTS BUILDERS PRIVATE LIMITED
24	AA7659286	U74210DL2005PTC140578	LINE AND FORM ARCHITECTS SERVICES PRIVATE LIMITED
25	AA7554052	U25209DL2006PTC156771	H P PACKAGING PRIVATE LIMITED
26	AA7217030	U32201DL2006PTC156387	FLASH BROADCASTING TV PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
27	AA7492215	U51109DL2008PTC281484	CTC EMPORIO PRIVATE LIMITED
28	AA7461896	U72900DL2022PTC405268	PUBANG TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
29	AA7285178	U72300DL2007PTC170090	SG ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
30	AA7126318	U65990DL2007PTC171465	SUNRISE WEALTH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
31	AA7219815	U63090DL2008PTC173163	INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
32	AA7065006	U45200DL2008PTC180049	SD DEVELOPWELL PRIVATE LIMITED
33	AA7449889	U17291DL2008PTC185135	ARJUN TEXTFAB PRIVATE LIMITED
34	AA7471173	U51909DL2009PTC186352	SMTH IMPEX PRIVATE LIMITED
35	AA7572814	U17120DL2008PTC185063	OONA CONSULTING & DESIGN SERVICES PRIVATE LIMITED
36	AA7515534	U74899DL1994PTC063534	NUPUR HERBALS PRIVATE LIMITED
37	AA7653264	U40300DL2010PTC203528	TP FARMS PRIVATE LIMITED
38	AA7603658	U70200DL2010PTC206339	HSM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
39	AA7240488	U74900DL2009PTC196977	N.M. JUTEX PRIVATE LIMITED
40	AA7466336	U74999DL2011PTC222300	LODESTAR LOGISTICS AND TRADERS PRIVATE LIMITED
41	AA7323152	U64200DL2009PTC191875	ADAPTIVE PRODUCTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
42	AA7203249	U63000DL2012PTC241089	LOTUS AIR TICKETS PRIVATE LIMITED
43	AA7620286	U18109DL2012PTC244259	AUDARYA CLOTHING PRIVATE LIMITED
44	AA7118204	U51900DL2012PTC234104	SPARK OVERSEAS PRIVATE LIMITED
45	AA7448182	U27200DL2011PTC226809	RESURGENT METALS PRIVATE LIMITED
46	AA7611911	U72400DL2006PTC149596	MITTALS SOFTWARE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
47	AA7326846	U51109DL2006PTC151589	URBAN IMPEX PRIVATE LIMITED
48	AA7345320	U74140DL2014PTC274816	VOX POPULI COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
49	AA7214302	U45400DL2014OPC272090	VIGOUR PROPBUILD OPC PRIVATE LIMITED
50	AA7626755	U74999DL2006PTC153434	G.T.C. ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
51	AA7183008	U67190DL2015PTC280443	GK 2 MONEY CHANGER PRIVATE LIMITED
52	AA7333270	U72300DL2015PTC280937	BUFFER LINK OVERSEAS PRIVATE LIMITED
53	AA7434640	U51909DL2015PTC278231	SAMUI INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
54	AA7216462	U74900DL2016PTC291261	NXTGEN HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
55	AA7128492	U74999DL2016PTC302538	ITNECTAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
56	AA7219816	U74300DL2015PTC277661	AASIA ADVERTISEMENT & PUBLICITY PRIVATE LIMITED
57	AA7248641	U52190DL2016PTC298456	NICOLINA TRADING PRIVATE LIMITED
58	AA7554054	U74999DL2018PTC334939	JAGANNATH PRESS PRIVATE LIMITED
59	AA7532619	U50400DL2017PTC315675	CARDOM VEHICLE TRADING PRIVATE LIMITED
60	AA7628231	U74999DL2017PTC317384	AMABELLA HANDMADE SOAPS PRIVATE LIMITED
61	AA7654703	U74999DL2018PTC339277	CARAFEL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
62	AA7518640	U92490DL2019PTC351128	DENOVO SPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
63	AA7639276	U74999DL2019PTC350330	ORDERS HYPER MART PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
64	AA7557718	U40108DL2019PTC354117	SWACHH WASTE ENERGY & ECOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
65	AA7222417	U63090DL2019PTC353997	KAILA TOURS PRIVATE LIMITED
66	AA7369736	U74999DL2019PTC357764	NUDGE INSIGHTS PRIVATE LIMITED
67	AA7614776	U55101DL2019PTC355000	DAR-REH VALLEY ESTATES PRIVATE LIMITED
68	AA7014872	U65999DL2020PLN361563	SIDHBALI NIDHI LIMITED
69	AA7195709	U74999DL2020PTC361429	PRESCIENT SKILLS PRIVATE LIMITED
70	AA7312780	U72900DL2020PTC364029	GAMERS ARENA PRIVATE LIMITED
71	AA7463344	U40300DL2020PTC360032	ADANI RENEWABLE ENERGY THIRTY TWO PRIVATE LIMITED
72	AA7466849	U29100DL2019PTC357385	TUMY PNEUMATICS PRIVATE LIMITED
73	AA7503224	U74999DL2020PTC369478	ENNEAD GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
74	AA7253200	U33119DL2020PTC368558	PBO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
75	AA7487590	U14290DL2021PTC376048	CHAKRAPANI MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
76	AA7432832	U52599DL2020FTC374866	INDISKA INDIA PRIVATE LIMITED
77	AA7393564	U27320DL2020PTC373268	ASR STRUCTURES PRIVATE LIMITED
78	AA7304223	U63030DL2021PTC377509	WORLD CLOUD LOGISTICS PRIVATE LIMITED
79	AA7283015	U52100DL2021PTC383033	AAROGYA PHARMACY PRIVATE LIMITED
80	AA7456424	U52100DL2021PTC384341	QUBAN ECOM PRIVATE LIMITED
81	AA7619294	U40106DL2021PTC387565	ELP SOLAR POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
82	AA7559432	U28999DL2021PTC388869	SRI KALA HASTI ISPAT PRIVATE LIMITED
83	AA7591154	U72900DL2022PTC400493	GRALUX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
84	AA7527103	U74999DL2022PTC395197	JAITLEY & BAKSHI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
85	AA7145260	U65999DL2022PTC400378	VETAN FINANCE PRIVATE LIMITED
86	AA7322145	U15490DL2022PTC392202	NEXT BITE ONLINE PRIVATE LIMITED
87	AA7550130	U50401DL2022PTC393644	INDUSCRAP AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
88	AA7381507	U45309DL2022PTC401508	N PLUS W CONTRACTS PRIVATE LIMITED
89	AA7241008	U31500DL2021PTC389305	KAUTECH ADVANCE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
90	AA7212626	U72900DL2021PTC387058	ONEZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
91	AA7310289	U20299DL2022PTC392421	LOGHORN PANELS PRIVATE LIMITED
92	AA7571346	U74999DL2022PTC401278	BLUEYED RESOURCES PRIVATE LIMITED
93	AA7517130	U25200DL2022FTC399317	SKYLAND MASTERBATCH SKYLAND INDIA PRIVATE LIMITED
94	AA7446339	U72900DL2022PTC394687	JHANVIMIRA INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
95	AA7633878	U24290DL2022PTC403797	DERIVIC INDIA PRIVATE LIMITED
96	AA7249958	U19129DL2022PTC405500	SAEMO EXPORTS PRIVATE LIMITED
97	AA7461808	U72900DL2022PTC405772	IZZYPAY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
98	AA6907420	U50404DL2023PTC409820	VANESSA GLOBAL PRIVATE LIMITED
99	AA7440202	U85500DL2023PTC410903	SUGAGOIL PRIVATE LIMITED
100	AA7607140	U86909DL2023PTC411186	EZIT HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
101	AA7368025	U72200DL2022PTC408256	RGS INFOSYSTEM PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
102	AA7491579	U64990DL2023PTC412420	SUPIN CHIT FUND PRIVATE LIMITED
103	AA7203377	U49231DL2023PTC413243	GLOWTRANS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
104	AA7183460	U82990DL2023FTC413571	LADDERPRO GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED
105	AA7507388	U93120DL2023PTC417408	VETERAN SPORTS PRIVATE LIMITED
106	AA7533908	U70200DL2023PTC414320	UNIHAND SERVICES PRIVATE LIMITED
107	AA7548912	U96905DL2023PTC421749	RAVISSANT STYLE PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013
Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/88—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7369025	U34300GA2005PTC004166	SHIVSAMARTH MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
2	AA7637033	U72900GA2018PTC013769	BUDDING BRANDS PRIVATE LIMITED
3	AA7473527	U27109GA2021OPC014638	PRITI ALUMINIUM (OPC) PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out

under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/89—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7614509	U63030GJ2022PTC132715	ARCTIC COLDBOX PRIVATE LIMITED
2	AA7557645	U72900GJ2020PTC117478	CHUTAKEE TECH PRIVATE LIMITED
3	AA7470467	U74999GJ2020PTC115286	DIGIQUAL SERVICES PRIVATE LIMITED
4	AA7433118	U17309DN2020PTC005611	ESTERAS CREATIONS PRIVATE LIMITED
5	AA7558600	U40107GJ2019PTC106198	SHRI VENKATESH GAS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
6	AA7578830	U74999GJ2019PTC110102	SIMPROCE PRIVATE LIMITED
7	AA7362078	U01120GJ2018PTC104913	KHEDUTPAY PRIVATE LIMITED
8	AA7186157	U24233GJ2015PTC082949	AMANTA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
9	AA7252949	U24232GJ2006PTC049069	RETROSYNTH FINECHEM PRIVATE LIMITED
10	AA7526816	U32106GJ2013PTC074321	EAT AND TREAT ADIT PRIVATE LIMITED
11	AA7394107	U74200GJ2014PTC081490	A J PATEL SURVEY CONSULTANT PRIVATE LIMITED
12	AA7514926	U67120GJ2010PTC060314	PARAM EQUITIES PRIVATE LIMITED
13	AA7130446	U67190GJ2007PTC083034	KASARE FINCAP SERVICES PRIVATE LIMITED
14	AA7372213	U64200GJ2022PTC135533	DEXTEROUS NETWORKS PRIVATE LIMITED
15	AA7246582	U25199GJ2000PTC038057	FEZZAN PRE-CURED PRIVATE LIMITED
16	AA7263718	U65910GJ1989PLC012104	MOON SECURITIES LIMITED
17	AA7180425	U51109GJ2004PTC043903	SIDDHI KERAMICS PRIVATE LIMITED
18	AA7440788	U24231GJ1995PLC025169	SUVIDHA COTTON LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub section (1) of

section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY

Assistant Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/90—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7519718	U51101MP2003PTC015715	LINK RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED
2	AA7261409	U85110MP2012PTC029664	STANDARD HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
3	AA7217471	U40106MP2014PTC032851	BALKRISHNA SOLAR POWER RESEARCH PRIVATE LIMITED
4	AA7231483	U25113MP2018PTC045160	ANTARMANA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
5	AA7619820	U60200MP2019PTC049830	ANIL TRANSPORT ORGANISATION PRIVATE LIMITED
6	AA7412695	U05000MP2019PTC049362	SHERKHAN FARMS PRIVATE LIMITED
7	AA7349352	U52396MP2020OPC050716	DIRELL INNOVATIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
8	AA7155321	U17299MP2019PTC049804	BADRI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
9	AA7519477	U01409MP2021PTC057367	MEDIFARM AGROSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	AA7161760	U74999MP2021PTC056304	MYHASHCODE PRIVATE LIMITED
11	AA7415220	U74999MP2021PTC056771	Y-FORCE SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	AA7551741	U31907MP2021PTC058981	AADI CORE EV SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
13	AA7535382	U01100MP2022PTC060583	DEVKASTURI SEEDS PRIVATE LIMITED
14	AA7610766	U45201MP2022PTC063021	ABHEER BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
15	AA7648355	U40106MP2023PTC064487	TECHNOVUS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
16	AA7256636	U62013MP2023PTC067514	PRODHOUNITY AI PRIVATE LIMITED
17	AA7272114	U70200MP2023PTC068311	REFRAMARK CONSULTANCY PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the

memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/91—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7373441	U15400HR2012FTC045595	REERACOEN INDIA PRIVATE LIMITED
2	AA7389001	U51909HR2012PTC047392	MAHALAXMI COMMODITIES PRIVATE LIMITED
3	AA7324350	U15490HR2016PTC065242	AGREEN FRESH VEGETABLES PRIVATE LIMITED
4	AA7398399	U45204HR2014PTC052038	SUNBEAM INFRA PROJECT PRIVATE LIMITED
5	AA7599508	U85100HR2015PTC056973	ARVENE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
6	AA7279010	U74999HR2015PTC056802	FLEXI RENTAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AA7396435	U74999HR2016PTC066593	FEHYPE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
8	AA7551576	U74999HR2016PTC064294	SMR INDIA CERTIFICATION SERVICES PRIVATE LIMITED
9	AA7331282	U52609HR2017PTC068033	ROADTRACK INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	AA7481991	U72900HR2017PTC076410	ALTUM BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
11	AA7219741	U80903HR2018PTC076244	FASCINATION BEYOND IMAGINATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
12	AA7480618	U63030HR2019PTC080541	CROWN JEWEL EXPEDITIONS PRIVATE LIMITED
13	AA7315170	U85200HR2019OPC081349	NUH HEALTHCARE (OPC) PRIVATE LIMITED
14	AA7266164	U52599HR2020PTC089017	ARTIER LIGHTING SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
15	AA7474048	U74999HR2020PTC089520	MAX-EMMA BULL PRIVATE LIMITED
16	AA7257559	U52599HR2021OPC094517	FISHBED HEALTH SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
17	AA7545493	U51909HR2021PTC095841	INDOMAT EXIM INDIA PRIVATE LIMITED
18	AA7579081	U85194HR2021PTC095708	HEALTHTECH ALGORITHMS PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
19	AA7427512	U63000HR2021PTC093413	EDUCATED UNEMPLOYED PRIVATE LIMITED
20	AA7143474	U45309HR2021PTC093290	ALWORON INFRATECH PRIVATE LIMITED
21	AA7392600	U80210HR2021PTC097899	EDUANALYTIX PRIVATE LIMITED
22	AA7296248	U74110HR2022PTC102231	GLAM LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
23	AA7537770	U24290HR2022PTC103762	MICROPLAST ENGINEERING POLYMERS PRIVATE LIMITED
24	AA7173242	U24239HR2022PTC103882	XENOBIOTICS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
25	AA7210059	U72900HR2022PTC105854	KAMIHAYA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
26	AA7123078	U74999HR2022PTC102113	OKOSPRO PROPERTY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
27	AA7374319	U70200HR2023PTC114503	ARPIT MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/92—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7325280	U74999HP2019PTC007307	FUNAR MARKETING PRIVATE LIMITED
2	AA7327692	U42101HP2023PTC010287	TRIVIKRAMAYE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years

and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/93—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7604493	U80903RJ2000PTC016695	DAFFODIL COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
2	AA7631042	U27105RJ2000PTC016367	SIGMA THERMIT PRIVATE LIMITED
3	AA7228137	U70101RJ1998PTC014933	BHAIRAV NATH COMPLEX PRIVATE LIMITED
4	AA7315910	U15499RJ2005PTC021508	KRISHANKRIPA FOODS PRIVATE LIMITED
5	AA7545794	U45201RJ2006PTC022744	RELIABLE BUILDSTATE PRIVATE LIMITED
6	AA7391543	U45201RJ2010PTC031291	ELTECH BUILDCON PRIVATE LIMITED
7	AA7551825	U51430RJ2013PTC043675	MAGNUM MULTI EXIM PRIVATE LIMITED
8	AA7574336	U70101RJ2014PTC046129	GSF REALTECH PRIVATE LIMITED
9	AA7330701	U24232RJ2007PTC024874	SAMNVAY PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
10	AA7369803	U70200RJ2016PTC049113	SHAPING STEPS INDIA PRIVATE LIMITED
11	AA7349669	U51102RJ2013PTC044540	B M TRADECON PRIVATE LIMITED
12	AA7323108	U80302RJ2013PTC043006	INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY STUDIES PRIVATE LIMITED
13	AA7321271	U72900RJ2016PTC055818	ENDEMIC EBAZAR INDIA PRIVATE LIMITED
14	AA7394840	U25209RJ2019PTC066519	FIXKON INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
15	AA7603693	U25190RJ2020PTC071215	KUMAR POLYPLAST PRIVATE LIMITED
16	AA7243774	U51909RJ2020PTC071715	BLUE PEACOCK EXPORT PRIVATE LIMITED
17	AA7364259	U74999RJ2020PTC070636	GLOBEWICK PRIVATE LIMITED
18	AA7532273	U01100RJ2021PTC074288	EVAA AGROVENTURES PRIVATE LIMITED

19	AA7413542	U80903RJ2021PTC074398	HONEYUNCLE EDU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	AA7567260	U14292RJ2021PTC077765	SB MINERALS PROCESSORS PRIVATE LIMITED
21	AA7449821	U45309RJ2022PTC079324	KANVVAL REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
22	AA7148382	U64200RJ2021PTC078004	MAHESH INFRA TELECOM SERVICES PRIVATE LIMITED
23	AA7560934	U15400RJ2022PTC082214	DEV RATNAGARBHA AGRO PRIVATE LIMITED
24	AA7496164	U40106RJ2022PTC083559	MORYANA RENEWABLE JODHPUR PRIVATE LIMITED
25	AA7510389	U46695RJ2023PTC088532	SBR SUITINGS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/94—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7527765	U33203JK2019PTC010846	ZEEKASH REMEDY PRIVATE LIMITED
2	AA7217443	U74999JK2018PTC010413	IKOSHUR RECRUITMENT PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out

under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/95—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7656101	U45202JH1990PTC004192	JHUMARI TELAIYA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
2	AA7501977	U45309JH2017PTC010469	ANSAR BUILDCON PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/96—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7582674	U74999UP2019PTC112355	YVC EXPORTS PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
2	AA7481257	U74999UP2019PTC112754	LETSCURE BIOTECH PRIVATE LIMITED
3	AA7182087	U70109UP2019OPC114086	NAGESH DEVELOPERS (OPC) PRIVATE LIMITED
4	AA7569056	U64200UP2022PTC170333	ZWECK NETWORKS PRIVATE LIMITED
5	AA7215822	U51909UP2022PTC170332	GRORABBLE INDIA PRIVATE LIMITED
6	AA7382598	U65910UP1992PTC014413	RAINBOW WOOLLENS PRIVATE LIMITED
7	AA7214073	U74900UP2010PTC040557	NIRMAL POLYTUBES PRIVATE LIMITED
8	AA7456483	U72300UP2009PTC037459	APEX TELENET PRIVATE LIMITED
9	AA7649188	U72300UP2013PTC171131	EQUOTIENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
10	AA7570999	U74120UP2011PTC047544	MINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
11	AA7367629	U27101UP1995PTC018767	DEEP ISPAT PRIVATE LIMITED
12	AA7525500	U51101UP2014PTC066072	TERA ONLINE PRIVATE LIMITED
13	AA7220967	U74900UP2014PTC062197	PFLOX TECH PRIVATE LIMITED
14	AA7261648	U74120UP2016PTC075615	KDM SPORTS PRIVATE LIMITED
15	AA7531235	U74900UP2013PTC061148	DIFFERENXIA RECRUITMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	AA7208514	U70109UP2017PTC092904	NAVOMAHABALI INFRATECH PRIVATE LIMITED
17	AA7235925	U45400UP2017PTC091439	ALDRIC INFRATECH PRIVATE LIMITED
18	AA7599421	U74999UP2017PTC098821	INTER-CON SECURITY SOLUTION PRIVATE LIMITED
19	AA7344789	U70103UP2017PTC095647	RESULTS PURSUITS PRIVATE LIMITED
20	AA7218326	U74999UP2017PTC094047	CORUSCATING ONLINE TRADING PRIVATE LIMITED
21	AA7282272	U15137UP2017OPC093130	SUNAHARI FOODS (OPC) PRIVATE LIMITED
22	AA7178379	U93090UP2018PTC105325	V2R HR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
23	AA7262671	U74999UP2018PTC106418	PAPART CREATIONS PRIVATE LIMITED
24	AA7305099	U51901UP2018PTC102031	MOHVID TRADERS & MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
25	AA7032283	U72100UP2018OPC102847	APPROGIC SOFTECH SOLUTION (OPC) PRIVATE LIMITED
26	AA7217485	U74999UP2018PTC110425	PORTICADE INFRAGREEN PRIVATE LIMITED
27	AA7210531	U74999UP2018PTC109502	KREYALOGIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
28	AA7454582	U70109UP2019PTC116346	SPLENGCT INFRAZONE PRIVATE LIMITED
29	AA7378993	U45309UP2019PTC120145	NRHM DEVELOPERS AND CONSTRUCTORS PRIVATE LIMITED
30	AA7217225	U51909UP2019OPC122918	RSS FMCG TRADING (OPC) PRIVATE LIMITED
31	AA7201794	U24110UP2020PTC125617	ALPCARE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
32	AA7273787	U72900UP2020PTC129266	AMENCER COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
33	AA7275240	U24299UP2021PTC146632	SOLPROJECTION PHARMA PRIVATE LIMITED
34	AA7208478	U51909UP2021PTC146127	VAISH FOODS PRIVATE LIMITED
35	AA7409780	U72900UP2021PTC144653	XPERT TECHWARE PRIVATE LIMITED
36	AA7294197	U18101UP2021OPC150936	AVAA GLOBAL FASHIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
37	AA7325564	U85100UP2021PTC152040	EBIXCITY PRIVATE LIMITED
38	AA7328348	U70200UP2021PTC141799	ALAAV PRIVATE LIMITED
39	AA7138702	U72900UP2021OPC155946	SOFTSAPLING INNOVATION (OPC) PRIVATE LIMITED
40	AA7627438	U34100UP2022PTC168428	JAGDAMBA AUTOCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
41	AA7458885	U74999UP2022PTC159170	GREAT QUEST BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
42	AA7190941	U74999UP2022PTC169008	SHRIJA ULTIMATE SOLUTION PRIVATE LIMITED
43	AA7613033	U72200UP2022PTC170017	SWINIP VENTURES PRIVATE LIMITED
44	AA7327928	U24304UP2022PTC170038	ASOSHILTH MEDICAMENT PRIVATE LIMITED
45	AA7341837	U85110UP2022PTC173311	SHREE PRATHMESHWAR HOSPITAL PRIVATE LIMITED
46	AA7218998	U65999UP2022PLN171777	SHREEGAJANAN PRAGATI NIDHI LIMITED
47	AA7520307	U72900UP2023PTC176173	SDARQ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
48	AA7411303	U45201UP2022PTC174713	WILLUS ROOFING AND CLADDING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
49	AA7622072	U10795UP2023PTC182595	MFMF NICE SPICES PRIVATE LIMITED
50	AA7492495	U42909UP2023PTC187091	ARVKAY REFRACTORY WORKS PRIVATE LIMITED
51	AA7555673	U47810UP2023PTC188072	BEBOBA RESTAURANTS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/97—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7606305	U74994KL2000PTC013644	GALLERIA INTERFURN PRIVATE LIMITED
2	AA7423883	U45200KL2009PTC023848	VERTICALHEIGHTS INFRASTRUCTURES (INDIA) PRIVATE LIMITED
3	AA7508165	U63090KL2015PTC039311	BOATGURU PRIVATE LIMITED
4	AA7375914	U45309KL2016PTC045718	PM HOLDINGS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
5	AA7323625	U01100KL2018PTC054663	HAM WOODS FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED
6	AA7498223	U52520KL2021PTC069888	FAM AND CUS BRAND PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
7	AA7539228	U24240KL2019PTC060105	BEHDASTH HOME CARE PRODUCTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
8	AA7308503	U65100KL2019PTC060487	SPINE 135 CHITS INDIA PRIVATE LIMITED
9	AA7577327	U63030KL2019PTC060557	FIVE OCEANS MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED
10	AA7630283	U72900KL2019PTC058701	METHOD NINJAS PRIVATE LIMITED
11	AA7521490	U31909KL2020PTC062761	JBCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	AA7392081	U72900KL2020PTC064158	ZYDEX INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
13	AA7367053	U14290KL2020PTC063760	KAIVELI GRANITES PRIVATE LIMITED
14	AA7201587	U45209KL2020PTC065267	GOLDENKEYPMC PRIVATE LIMITED
15	AA7193959	U24299KL2021PTC067078	EVID MED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	AA7522355	U24236KL2020OPC066241	ANSMED LIFE CARE (OPC) PRIVATE LIMITED
17	AA7566178	U18101KL2020PTC066032	WOWMAA PRIVATE LIMITED
18	AA7474514	U72200KL2021PTC071295	LOOPS11 TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
19	AA7631309	U72900KL2021PTC071910	NOORANAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
20	AA7583745	U52609KL2022PTC079249	SAMB TRADING AND EXIM PRIVATE LIMITED
21	AA7541528	U43309KL2023PTC081156	AQUATECTURE DESIGNS PRIVATE LIMITED
22	AA7488711	U53200KL2023PTC081630	ITL EXPRESS WORLD PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/98—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7207089	U74300WB1996PTC081743	SCARLET ADVERTISING AGENCIES PRIVATE LIMITED
2	AA7285191	U74300WB2004PTC098570	ARUN SIGN PUBLICITY PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
3	AA7398487	U51909WB2004PTC100266	MADHURIMA TRADELINKS PRIVATE LIMITED
4	AA7523112	U72900WB2022PTC257553	ASTRAKAVACH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	AA7652530	U74900WB2007PTC118253	SILVER E - DATA PRIVATE LIMITED
6	AA7214839	U74120WB2008PTC121479	MJ FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
7	AA7331437	U74120WB2008PTC124676	PM MEGHA CONSULTANT PRIVATE LIMITED
8	AA7207071	U19116WB2011PTC157380	PANORAMA LEATHERS PRIVATE LIMITED
9	AA7219058	U74999WB2011PTC158775	G F MARKETING PRIVATE LIMITED
10	AA7510573	U74999WB2011PTC160369	ARIHANT DERIVATIVES & EQUI PRIVATE LIMITED
11	AA7623064	U51909WB2011PTC161409	SATYANARAYAN MARCOM PRIVATE LIMITED
12	AA7186172	U51909WB2012PTC178712	SUBHLIFE MARKETING PRIVATE LIMITED
13	AA7228530	U74999WB2012PTC182283	SUBYTOUCH EXIM PRIVATE LIMITED
14	AA7559752	U45400WB2014PTC202809	GUNJON DREAMSTAYS PRIVATE LIMITED
15	AA7245321	U70109WB2011PTC166412	TIRUPATI INFRANIKETAN PRIVATE LIMITED
16	AA7157177	U74900WB2014PTC202360	ULTIMATE HOMEPAINTS PRIVATE LIMITED
17	AA7292528	U74900WB2014PTC200740	GAP CELEBRATION AND EVENTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
18	AA7058770	U74900WB2015PTC209046	EL HOGAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
19	AA7285780	U74999WB2016PTC216332	SEIZETECH ANTIQUE PRIVATE LIMITED
20	AA7489627	U93000WB2017PTC222221	AGARWAL DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
21	AA7321764	U55209WB2017PTC221568	ATVI HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
22	AA7561499	U27320WB2018PTC225252	ADRIT INFRATECH PRIVATE LIMITED
23	AA7610204	U55100WB2014PTC202556	GUNJON LIQUORS PRIVATE LIMITED
24	AA7624799	U74999WB2018PTC225619	ALMITAS UNICUS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
25	AA7404517	U52520WB2019PTC234635	ANJALICARE SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
26	AA7216644	U60221WB2020PTC237368	TRADECON ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
27	AA7284682	U70109WB2020PTC241346	HOWRAH CLOTH HUB PRIVATE LIMITED
28	AA7211392	U51300WB2021PTC247656	TRIHAAN IMPORT PRIVATE LIMITED
29	AA7242760	U51494WB2021PTC247490	ICONEXT INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
30	AA7372616	U15549WB2021PTC248641	APEEJAY TEA & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
31	AA7518598	U21099WB2021PTC248539	SHREE BANSHI LUXMI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
32	AA7661698	U51909WB2021PTC247928	LSK IMPEX PRIVATE LIMITED
33	AA7520588	U18109WB2021PTC250409	RESQMED INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
34	AA7493659	U72900WB2022PTC252565	LIFTAPEX PRIVATE LIMITED
35	AA7303344	U24299WB2022PTC253332	GREENEX BIO FUELS PRIVATE LIMITED
36	AA7298084	U45202WB2022PTC256554	NANDIDAS PROJECTS PRIVATE LIMITED
37	AA7157292	U55101WB2023PTC266939	JALCHHABI RESORT PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section

455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY

Assistant Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/99—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7607586	U72900MH2021PTC359094	SIMPLYGEM IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	AA7197686	U27100MH1987PTC045123	AKAY POWERLINE PRODUCTS PVT LTD
3	AA7510483	U34300MH1991PTC061940	RAHUL TECHNOCRAFTS PVT LTD
4	AA7424882	U74210MH1995PTC084635	SIDDHESH CONSULTANCY AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
5	AA7261155	U27203MH1996PTC096197	ASCON ARABIAN ALUMINIUM COMPANY PRIVATE LIMITED
6	AA7334653	U67120MH1995PTC086964	BHARARI METAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
7	AA7572448	U70100MH1996PTC102899	NEW ERA REALTY PRIVATE LIMITED
8	AA7245073	U27202MH1998PTC116181	SHREE ASHTAVINAYAK STEELS PRIVATE LIMITED
9	AA7549859	U24296MH2022PTC390965	ANANDRAM ORGANICS PRIVATE LIMITED
10	AA7422496	U92120MH2007PTC167237	GO CAM FILMS PRIVATE LIMITED
11	AA7209140	U74140MH2007PTC173293	KEYJOB CONSULTANT PRIVATE LIMITED
12	AA7651949	U74900MH2008PTC180027	NEBULA MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
13	AA7472039	U31909MH2009PTC192791	V D PATKAR ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
14	AA7563663	U74140MH2010PTC201102	NAVMANTRA CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
15	AA7345587	U72900MH2010PTC204821	LONG RANGE SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
16	AA7214378	U85191MH2012PTC238949	FORTE WELLNESS PRIVATE LIMITED
17	AA7177520	U74999MH2012PTC228010	RAGHAVENDRA AVIATION SERVICES PRIVATE LIMITED
18	AA7160183	U52100MH2013PTC248793	LUMENS PROJECT LIGHTING PRIVATE LIMITED
19	AA7665635	U51909MH2003PTC143339	ABHYUDAY COMMODITIES PRIVATE LIMITED
20	AA7568307	U74999MH2014PTC258245	AIMS MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
21	AA7216409	U74900MH2015PTC269825	NITZZ GLOBAL IT SERVICES PRIVATE LIMITED
22	AA7300117	U72501MH2015PTC268555	URBANITY MULTISOL PRIVATE LIMITED
23	AA7094875	U93000MH2012PTC226340	SUSAJ BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	AA7297432	U74999MH2015OPC267108	DENIM OVER ME DENIM PRODUCTS PRIVATE LIMITED (OPC)
25	AA7277282	U15549MH2016PTC287658	ARYAOM MILK PRODUCTS & AGRO PRIVATE LIMITED
26	AA7324305	U72200MH2008PTC288446	ROAM SPACE TRAVEL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
27	AA7563302	U72200MH2016PTC274259	FRANSOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
28	AA7144249	U75210MH2016PLC273310	RELIANCE CRUISE AND TERMINALS LIMITED
29	AA7634563	U74999MH2016PTC283129	SKYSCRIPT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
30	AA7219797	U36101MH2015PTC262828	WOODBBOX FURNISHING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
31	AA7260765	U72900MH2016PTC281171	KAPC DIGITAL TECHNOLOGY PRODUCTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
32	AA7619482	U85320MH2017PTC293680	AMEYA LASER & COSMETICS CENTRE PRIVATE LIMITED
33	AA7456807	U74999MH2016PTC287041	BELOOGA MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED
34	AA7590932	U74999MH2017PTC295201	TOPWAY MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
35	AA7655283	U74999MH2017PTC299527	LEGAME TRADING PRIVATE LIMITED
36	AA7293877	U74999MH2017PTC295812	TBD POWER AND GAS PRIVATE LIMITED
37	AA7633937	U74999MH2017PTC297067	HAI SUI INNOVATION PRIVATE LIMITED
38	AA7540116	U45500MH2018PTC312072	GB INDUSTRIAL PARKS CHENNAI PRIVATE LIMITED
39	AA7278127	U93090MH2018PTC313356	PREKSHAF FOUNDATION PRIVATE LIMITED
40	AA7199329	U15490MH2018PTC313655	SVAHSREYASA DAIRY AND AGRO TOURISM PRIVATE LIMITED
41	AA7450511	U33309MH2018PTC314328	BULLSHARK MEDISYSTEMS PRIVATE LIMITED
42	AA7435811	U74999MH2018PTC315683	SUPERLATIVE TALENT MEDIA PRIVATE LIMITED
43	AA7613387	U74999MH2018PTC308165	LEOKING NETWORKS PRIVATE LIMITED
44	AA7404192	U41000MH2019PTC326934	RMN CALIBRATION SERVICES PRIVATE LIMITED
45	AA7466973	U01100MH2019PTC328450	NATURAL GOLD AGRO ORGANIC PRIVATE LIMITED
46	AA7442295	U72900MH2019PTC332034	PEOPLETECK DELTA IMPACTCHAIN PRIVATE LIMITED
47	AA7570985	U85110MH2019PTC332133	DOCMET HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
48	AA7081074	U74999MH2019PTC323900	GLOBAL SILVERLINK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
49	AA7215764	U72900MH2020PTC339197	PARVENCE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
50	AA7287420	U15490MH2020PTC338718	RELISH BLENDS PRIVATE LIMITED
51	AA7490180	U51909MH2020PTC339891	TWIN PETALS PRIVATE LIMITED
52	AA7155279	U74900MH2020PTC339688	PMSSSJ DROPSHIPPERS PRIVATE LIMITED
53	AA7523415	U67100MH2020PTC337479	INFINITE LOOP CAPITAL PRIVATE LIMITED
54	AA7183432	U93000MH2018PTC312255	SEANEXT MARINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
55	AA7646860	U29309MH2020PTC343839	SIDDHIVINAYAK SPECIAL PROFILE PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
56	AA7484292	U67120MH2020PTC340978	BPR FINSERVE PRIVATE LIMITED
57	AA7282497	U74999MH2020FTC348985	NOWDOCTOR PRIVATE LIMITED
58	AA7415218	U60200MH2021PTC354609	RAJAWAT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
59	AA7527585	U72900MH2020PTC348273	DAILY DASH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
60	AA7633671	U51909MH2021PTC361386	SILVA ORTUS IMPEX PRIVATE LIMITED
61	AA7548454	U29309MH2021PTC360189	CRONAGE PRIVATE LIMITED
62	AA7350542	U92490MH2021PTC359142	GHARAT'S NEWS PLATFORMS PRIVATE LIMITED
63	AA7625390	U51909MH2021PTC360378	AWBM IMPEX PRIVATE LIMITED
64	AA7408842	U74999MH2021PTC359388	SEAT AT THE TABLE PRIVATE LIMITED
65	AA7462485	U74999MH2021PTC366799	SHIVALIK MULTIPURPOSE PRIVATE LIMITED
66	AA7408743	U24304MH2021PTC361799	APAUSE LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
67	AA7251589	U74999MH2021PTC361330	INTERN THEORY CAREER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
68	AA7152415	U74999MH2021PTC364364	GUD SKIN PRIVATE LIMITED
69	AA7452542	U72900MH2021PTC364491	PAYIFY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
70	AA7395724	U15135MH2021PTC365806	GOLDEN NEST PROTIENS PRIVATE LIMITED
71	AA7234006	U22300MH2021PTC367579	REFLECTION PRINTPACK INDIA PRIVATE LIMITED
72	AA7321908	U25209MH2022PTC374523	ABSOLUTE PLASTICS PRIVATE LIMITED
73	AA7544310	U72900MH2022PTC375148	QUANTUM LIQUIDITY LABS PRIVATE LIMITED
74	AA7483270	U74999MH2022PTC375524	MERAPARCEL PLATFORMS PRIVATE LIMITED
75	AA7215860	U29309MH2022PTC386255	MIRAAR GLOBAL PRIVATE LIMITED
76	AA7288827	U67100MH2022PTC386427	NEHAT PAYMENTS SERVICES PRIVATE LIMITED
77	AA7415977	U01210MH2022PTC387049	VAKSANA GOAT PRODUCER COMPANY LIMITED
78	AA7452758	U29100MH2022FTC382946	STEP ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED
79	AA7505576	U21099MH2022PTC378612	GTC GLOBAL PRIVATE LIMITED
80	AA7049511	U74999MH2023PTC397216	ERSCHRECKEND PRIVATE LIMITED
81	AA7426605	U52101MH2023PTC399116	FRESH TECHH COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
82	AA7645682	U51909MH2022PTC394110	SIVISTAN IMPEX PRIVATE LIMITED
83	AA7191073	U85306MH2023PTC400288	VIBRATION TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
84	AA7626258	U52292MH2023PTC401703	JNY GLOBAL LOGISTICS PRIVATE LIMITED
85	AA7577774	U39000MH2023PTC401182	EXCLUSIVE LINEN RECYCLING PRIVATE LIMITED
86	AA7447523	U68100MH2023PTC402068	MYLEN REALTORS PRIVATE LIMITED
87	AA7497056	U86201MH2023PTC414967	CLINSOUL PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013
Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/100—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7578952	U72900OR2022PTC040717	DCRYPTERS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
2	AA7334036	U72200OR1996PTC004390	NU HORIZON SERVICES PRIVATE LIMITED
3	AA7344858	U70101OR2012PTC015298	S.S.INFRA-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4	AA7345831	U14291OR2006PLC008983	BEAUTIFUL GEMS LIMITED
5	AA7564348	U70109OR2018PTC028631	SWAYAMSWARUPA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
6	AA7604247	U55101OR2019PTC032098	REYKOR HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
7	AA7219624	U80101OR2019PTC032334	JOYFUL NOISE PRIVATE LIMITED
8	AA7327558	U85300OR2020PTC034270	UTKAL SANJEEVANI HOSPITAL PRIVATE LIMITED
9	AA7566169	U45309OR2020PTC034268	SAMARSRADHA HOUSE PRIVATE LIMITED
10	AA7271373	U74999OR2020PTC034789	TICMA SERVICES PRIVATE LIMITED
11	AA7293049	U01110OR2021PTC036703	HYDROAQUA FARM PRIVATE LIMITED
12	AA7434076	U70109OR2022PTC038578	MILAN BUILDERS & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
13	AA7236664	U72900OR2022OPC038579	GADGETWEBJET DIGITAL (OPC) PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/101—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7649840	U72900PY2020PTC008590	ONWALLET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY

Assistant Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/102—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7547296	U65993PN1995PTC084834	SUSHONI HOLDINGS PRIVATE LIMITED
2	AA7322995	U72200PN1998PLC012777	ELITE SYSTEMS AND SOLUTIONS LIMITED
3	AA7236543	U24119PN2000PTC015274	POPULAR ORGANIC PRIVATE LIMITED
4	AA7547984	U45400PN2008PTC132268	AKSHADA REALTY PRIVATE LIMITED
5	AA7221109	U65992PN2012PTC143170	KUDOS CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
6	AA7218060	U74999PN2014PTC152322	AV INVENTURE LABS PRIVATE LIMITED
7	AA7620400	U72200PN2015PTC156171	WORKOUTGURU TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	AA7498177	U29100PN2017PTC169000	CLIMA GREEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
9	AA7192535	U51909PN2021PTC198831	FLYFISHCOM INDIA PRIVATE LIMITED
10	AA7574759	U74999PN2017PTC171811	AAKS DIMENSIONS PRIVATE LIMITED
11	AA7513573	U74999PN2018PTC177952	TOMJO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S. No.	SRN	CIN	Company Name
12	AA7601254	U93090PN2018PTC179282	IDEANEST LABS PRIVATE LIMITED
13	AA7196162	U72900PN2019FTC185103	AD.NET DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED
14	AA7312064	U74999PN2019PTC186557	SUSANKALP EXIM PRIVATE LIMITED
15	AA6962782	U15134PN2020PTC190487	NUTRITIOUS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
16	AA7605673	U72900PN2020PTC189503	MANIT INFOTECH PRIVATE LIMITED
17	AA7401057	U36100PN2020PTC196039	MANAAM IMPEX PRIVATE LIMITED
18	AA7602686	U51909PN2020PTC197022	NAVBHARATI MART E-BUSINESS PRIVATE LIMITED
19	AA7455621	U74999PN2022PTC208899	BUYMEC MERCHANTS PRIVATE LIMITED
20	AA7509574	U74999PN2022PTC209653	WORKNEX GLOBAL PRIVATE LIMITED
21	AA7102715	U65999PN2022PLN207695	DHANSHREEM RAMA NIDHI LIMITED
22	AA7435988	U25190PN2022PTC207550	AGILE SYNERGY PRIVATE LIMITED
23	AA7150458	U40300PN2022PTC213389	SORIGIN RES TIRUCHULI (TN) PRIVATE LIMITED
24	AA7513575	U51909PN2022PTC209345	ALLTRANZ EXIM PRIVATE LIMITED
25	AA7462052	U74999PN2022PTC214445	ANIMORI DECARBONIZATION SERVICES PRIVATE LIMITED
26	AA7160615	U15100PN2022PTC210786	BIOLIFE BEVERAGES PRIVATE LIMITED
27	AA7142368	U85100PN2022PTC217285	PVD FITNESS SQUARE PRIVATE LIMITED
28	AA7038554	U72200PN2022PTC217110	COGNANCY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
29	AA7523281	U69202PN2023PTC221383	ARTICON INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
30	AA7495382	U31001PN2023PTC222964	ITALUXE PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/103—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7408305	U74999TG2017PTC116441	INDRASON AND GRANDSONS CHITS PRIVATE

S. No.	SRN	CIN	Company Name
			LIMITED
2	AA7187880	U99999TG1994PTC018197	KADIRISH FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
3	AA7526902	U70102TG2005PTC046948	TERRAFIRMA INFRASTRUCTURE INDIA PRIVATE LIMITED
4	AA7526155	U71300TG2005PTC046360	BROOK STONES HOME SUITES PRIVATE LIMITED
5	AA7141948	U24222TG2004PTC044218	SREE VAJRA PAINTS PRIVATE LIMITED
6	AA6974028	U24232TG2008PLC057391	ECOLOGIC CHEMICALS LIMITED
7	AA7161998	U74900TG2008PLC058294	ECOLOGIC TECHNOLOGIES LIMITED
8	AA7524834	U74140TG2015OPC097197	ONLINE NUTRITION PRIVATE LIMITED (OPC)
9	AA7419805	U72900TG2014PTC092383	TAXGENIEONLINE INDIA PRIVATE LIMITED
10	AA7207647	U72300TG2015PTC102054	THINK DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
11	AA7122462	U67190TG2017PTC117030	SALAD FINANCIALS PRIVATE LIMITED
12	AA7210041	U36999TG2017PTC117224	SHRI SIDDHIDHATA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
13	AA7233303	U15120TG2018PTC126547	PRAVARA INNOVATIVES PRIVATE LIMITED
14	AA7280397	U72901TG2019OPC132605	BRETELLE TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
15	AA7563825	U93090TG2019PTC136585	RENU ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
16	AA7234346	U74999TG2020PTC141399	LICENCEBANAO FOOD CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
17	AA7545333	U74900TG2020PTC138554	MITRA MARRIAGES PRIVATE LIMITED
18	AA7230697	U72900TG2020PTC143113	AADHION DIGITAL PRIVATE LIMITED
19	AA7525777	U85110TG2020PTC145313	PRATHAM ORGANICS ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
20	AA7323414	U63040TG2021PTC148569	BLACK CLOVER PRIVATE LIMITED
21	AA7222346	U92190TG2020PTC146609	AH NEWS AGENCY PRIVATE LIMITED
22	AA7526154	U74999TG2020PTC146047	NISWAK ENGINEERING PRIVATE LIMITED
23	AA7623512	U72200TG2021FTC150916	DOJOKO TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
24	AA7449861	U26940TG2021PTC154123	RKON RMC INDIA PRIVATE LIMITED
25	AA7287059	U93090TG2021PTC148978	TORTOISE CREATIVE PRIVATE LIMITED
26	AA7263219	U45202TG2021PTC153365	MYNEST ESTATES PRIVATE LIMITED
27	AA7620701	U72900TG2021PTC153805	KRYPTONSQUARE PRIVATE LIMITED
28	AA7336742	U72900TG2021PTC156984	EDUI2I PRIVATE LIMITED
29	AA7186035	U72900TG2021PTC158316	ON HER WAY PRIVATE LIMITED
30	AA7248469	U74999TG2022PTC160143	NATIVE HEARTS PRIVATE LIMITED
31	AA7403556	U74999TG2021PTC156670	FINGER CLAP SERVICES PRIVATE LIMITED
32	AA7566025	U74999TG2022PTC169721	ENRICH3D MANUFACTURING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and

a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/104—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7600181	U85500UT2023OPC015525	CLIMBIN INSTITUTE (OPC) PRIVATE LIMITED
2	AA7386130	U72900UR2023PTC015161	AGRO FARMPRENUER SOLUTION PRIVATE LIMITED
3	AA7379144	U01110UR2022PTC014748	GROW ECO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4	AA7599534	U73100UR2021PTC012972	SUENOS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
5	AA7181780	U72900UR2022PTC013497	RADHEKRISHNA CONNECTING PRIVATE LIMITED
6	AA7022164	U67190UR2022PTC013605	QED FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
7	AA7454991	U72900UR2021PTC012304	HELLOSYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	AA7115419	U65990UR2021PLN012285	SHREE AKSHARA SANCHAYA NIDHI LIMITED
9	AA7375722	U52609UR2019PTC009646	CNFRNT ATTIRE PRIVATE LIMITED
10	AA7294807	U74999UR2018PTC008989	HIGHLAND TREKKERS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY
Assistant Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 7th May 2024

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/ 105—

S. No.	SRN	CIN	Company Name
1	AA7268415	U65992AP2009PTC064633	SHREE RUKMINI CHITS PRIVATE LIMITED
2	AA7580554	U72400AP2014PTC093325	GIROWS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3	AA7580945	U01403AP2016PTC098528	SIPRIKA AGROS PRIVATE LIMITED
4	AA7367502	U90009AP2019PTC112993	KANTHURI PETRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
5	AA7454089	U36990AP2020PTC114222	KUPPAM ELECTRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	AA7201362	U72900AP2020PTC115186	VERTUSOL PRIVATE LIMITED
7	AA7485771	U45401AP2020PTC116085	OH MY HOMES PRIVATE LIMITED
8	AA7199941	U55209AP2021PTC116973	TALDHI FOODS PRIVATE LIMITED
9	AA7663965	U72900AP2021PTC118291	PINE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
10	AA7582446	U55101AP2021OPC119673	POPLIN RESIDENCY (OPC) PRIVATE LIMITED
11	AA7509584	U72900AP2022PTC123482	ASTENPRO INDUSTRIAL SCIENCE PRIVATE LIMITED
12	AA7229476	U51909AP2022PTC123657	ESTEEME GRANITE PRIVATE LIMITED
13	AA7543992	U47912AP2023PTC110801	SLEEK KULT APPARELS PRIVATE LIMITED
14	AA7453204	U62099AP2023PTC110706	TECHEJECT PRIVATE LIMITED
15	AA7522604	U86905AP2023PTC111873	TRACE DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

IRKAN TIRKEY

Assistant Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Gwalior - 474009, the 2nd May 2024

No. ROC-G/LLP-24/publication/2024/184—Notice is hereby given pursuant to Sub Rule 3 of Rule 37 of Limited Liability Partnership Rules, 2009 that name of the following Limited Liability Partnerships have this day been struck off from the register and the said Limited Liability Partnerships are dissolved:—

S. No.	LLPIN	LLP Name
1	ABA-8390	ADITRONSDIGITALMEDIA LLP
2	AAY-9019	GARV VENTURES LLP
3	AAX-2680	FORK & SPICE LLP
4	AAS-9740	RUUHCHITRA IMAGINGSERVICES LLP
5	AAP-8360	GREENEX NON WOVENSLLP
6	AAJ-3254	ONE STOP SERVICESINDIA LLP
7	AAC-1750	DB HERITAGE LLP
8	ABA-0626	YOG ENTERPRISE LLP
9	AAZ-6408	OMALLA ADVERTISING LLP
10	AAZ-5189	RSMALVIYA SON'S ECOMMERCE LLP
11	AAW-5689	SUPERPROKIDS E-LEARNING LLP
12	AAU-5034	ONLY EGGS LLP
13	AAU-0512	HOMSERVE HYPERLOCAL LLP
14	AAT-9339	RAJMANI MEDIAHOUSELLP
15	AAT-4021	STYLORIA LLP
16	AAS-9851	AROMYA FOOD & BEVERAGES LLP
17	AAQ-2585	NEXT SUM OF SIXCONSULTING LLP
18	AAQ-0246	LAKSHYABHED MARKETING SERVICES LLP
19	AAK-4009	VASUNDHARA CORPADVISORS INDIA LLP
20	AAC-3614	ANAYA IMPEX LLP

MUKESH KUMAR SONI,

ROC MP, Gwalior